



हिन्दी-अन्य-रत्नाकरका १३ षो प्रस्तु

# मौकितक माल

( गथ-गीत )

— भैरो —

कुमारी दिनेशनन्दिनी घोरद्वा

~~~~~

प्रकाशक

हिन्दी-अन्य-रत्नाकर कार्यालय, वस्त्रह

प्रकाशक—

नाथूराम प्रेमी,  
हिन्दी-भाष-सत्त्वाकर फार्मास्य,  
हिरायाग-नवर्हे

पद्मली धार

अगस्त, १९३७

मू० १।)

प्रिटर—

रघुनाथ दिपाजी देसाई,  
न्यू भारत प्रिटिंग प्रेस  
केलेवाडी, गिरगाव बम्बई न० ४

# मौकितक माल



## भूमिका

—४५८—

‘गद्य कवीना निकप बदनि०’, श्रुतिकी तरह यह भी अमेल है । ऐडे-मेडे ऊटपटाँग भाव पदके चमत्कारी पर्देमें भले ही लुके रहें, परन्तु, गद्यके मैदानमें उत्तरते ही बेतुकी पछाड़ राते हैं । इसीलिए, गद्य गीत सरल नहीं होते और उनकी सुष्ठि सब किसीका काम नहीं है । तत्त्व न हुआ तो यह गद्यका चेतक चेतता ही नहीं, उलटे दुलत्ती लगाता है । उसे कस कर जो दृत और अद्वृतकी समस्या हल करना चाहते हैं, सारथ और मीमांसाके कुलबे मिलाना चाहते हैं, वे सीसौदियोंके प्रतापकी जगह कठवाहोंके मानका ही दम भरते हैं । गद्य-गीत क्या हैं और क्या न होने चाहिए, यह वही जानते हैं जो आप तन्मय हैं और गद्यको तन्मय कर सकते हैं । न वह पत्र हैं न निबध्न, न कहानियों न कथाकाव्य,—यह तो प्रत्यक्ष है । वे पत्रमें पलटे नहीं जा सकते । मदारीरुपी गोलियाँ नहीं हैं,—इधर रख लीं या उधर । गीत हैं । सरस्वतीका दिव्य वेग जिस तरह पद्यको अक्षर अक्षर आप ही आप अपने अनुरूप बना लेता है, उसी तरह गद्यको भी उन्मत्त कर देता है,—यह सस्कृत साहित्यका सिद्धान्त है ।

यह मोतियोंकी माला प्रेमके पर्दोंपर इस पारसे उस पारको उपहार है । मोतियोंका क्या कहना ? ‘किं किं न तेन विद्वित चत मौकितकेन ?’

यह गद्य सजीव है, सबल है, सुदर है । उसपर आत्माकी छाप है, दिव्यकी दाप है । वह भावोंमें गोते लगा रहा है, तारोंसे भाँति भाँतिके स्वर निकाल रहा है । कहीं हिन्दी-उर्दू गले मिलती हैं, कहीं मुला और पाडित प्रेम पढ़ते हैं । उसमें विधना रूप बदलता है, मोहन मोहन ही ठहरते

हैं। शैलीमें आँसू हैं, मुसकान है, आँच है। 'सध्या होते ही मैं सरोबर-पर जा बैठी, बिना सावनके ही बदरिया छुक आई' यह गद्यकी सुरीली वॉसुरी है। 'मन-मृग काहे डोलत फिरे' यह पद्यकी सरहदपर छापा है। 'चाँदके प्यालेमें अगूरका आसब' एक ओर, 'पृथ्वीकी अनन्त सुपमा और आहार ही मदिरा होंगी' दूसरी ओर, 'तरल तारिकाकान्त किरीटेन्दु और तेजोमय तमारि' इधर 'और किर, मैं हूँडे भी न मिलौरी' उधर-'यह मौलाहीकी करनूत है।' शब्दोंके लाइले कहीं कमरोंमें सँवारे जाते हैं, कहीं आप ही आँगनमें छगन मगन हैं। छोटे छोटे गीत बडे बड़ोंसे बाजी मार ले गये हैं। राजहस कहीं उड़ान ले रहे हैं, कहीं छीर ही छान रहे हैं। यहाँ ईरानी वारुणी है तो वहाँ भारतीय पचासूत या गोलोकका गगाजल।

ग्रन्थ सफलताके पथपर है। कुमारी दिनेशनन्दिनीजी चोरडथाधरानेकी एक आनन्दिनी मणि हैं। उनकी आत्माका प्रकाश अनन्त काल तक रहेगा, इसमे सन्देह नहीं। मानवी जीवन कितना गूँड है, कठोर है, जटिल है,—बिचित्र है,—सयोग और वियोग, जन्म और मृत्यु, ईश्वर और जीव, क्या क्या कला खेलते और खिलाते हैं, यह कुछ जानना हो तो यह ग्रन्थ अपनाना चाहिए। इसमे शान्ति है, सत्य है, सुधा है,—यह मेरा निजी अनुभव है।

श्रीप्रयागराज

शिवाधार पाडेय

हिज हाइनेस श्रीसवाई महेन्द्र महाराज

ओडछा-नरेश

सर वीरसिंहजूदेव के० सी०एस०आई०

और

श्रीमती महारानी-साहबाके

कर-कमलोंमें

सादर समर्पित



जैसे ग्रीष्मकी सूखी धरणी वर्षाकी प्रतीक्षामें व्याकुल हो  
जाती है,

मयूर आपाढ़के प्रथम दिवस ही नीलमेघकी प्रतीक्षामें  
सुन्दर रव कर कर विहळ हो जाता है,

प्रावृद्धके आरम्भमें ही पपीहा 'पीऊ कहाँ, पीऊ कहाँ '  
की रट लगा स्वातिनी अमृत-बूँदोंके लिए निर्निमेप दृष्टिसे  
आतुर रहता है,

चकोरी चॉदपर निछार होनेके लिये बौरा जाती है,  
और प्रोपित-पतिका, रातकी उनीदी घड़ियोंमें घड़ी घड़ी  
चौककर अपने प्रीतमके प्रत्यागमनकी मजुल प्रत्याशासे  
द्वारकी ओर झौँकती है,—

वैसे ही रिश्व आज मेरे गीत सुननेके लिये व्यग्र है !

मेरे हृदयके पावन रक्तसे पछे गद्य-गीतो ! माताकी गोद, और  
वालापनका आशियाना छोड़कर साहित्यके आनदमय अनत  
गगनमें, अपने स्वर्णिम पख फड़-फड़ा, हुलस हुलस, ऊँचे उड़ो,

और अपनी सङ्गीत-लहरीसे अपने प्रेमियोंको मन्त्र-  
मुग्ध करो !

सहृदय ससार तुम्हारा उसी भुग्न-मोहिनी मुसङ्ग्यानसे  
स्वागत करे जिसे मैं अपने प्रेमीके अधर-सम्पुटपर देखनेके लिये  
सदा लालायित रहती हूँ !!



मैं तो चाकर प्रेमकी,

प्रेम, तू ही विश्वमें महान् सत्य, पूर्ण सौन्दर्य और  
चिरन्तन प्रकाश है,

तेरी चरण-पादुकाने ही इस पृथ्वीको पवित्र तीर्थस्थान  
बनाया है जिसके रज-कणका तिलक अपने भालपर लगानेके  
लिये देवता भी उत्सुक रहते हैं,

कवियोंने अनादि कालसे तेरा ही गुण-गान किया है, तू  
ही कविताका आदि स्रोत है,

शहीदोंने तेरी वेदीपर जीवन न्यौछावर कर मृत्युको मुक्तिका  
राजमार्ग बना दिया है,

चिरजीवन और चिरमृत्युका मधुर मिलन तुझमें ही होता  
है,—तू ही मृत्यु और मृत्युजय है,

मृत्यु, तुझमे नवीन जीवन अन्तर्हित है, मैं तेरा स्वागत  
करती हूँ,

जीवन,—रहस्यमय जीवन,—वह प्रदेश जहाँ स्वर्ग और  
भूतल क्षणभरके लिये मिलते हैं, मैं तेरी ऐश्वर्य-भरी निधिसे  
मेरे आराव्यके पदाम्बुजोंपर चढ़ानेके लिये यह अनमोल भेट  
लाइ हूँ ।

मैं तो चाकर प्रेमकी !

ऐ बुत, चाहे ढुकरा, चाहे प्यार कर;  
 तेरी परस्तिश मेरा मज़्हब है,  
 तेरा ज़िक्र वज्मे शोअरामें करना मेरा शेवा है,  
 तेरा हुस्न मेरे शिवालेका उजियाला है,  
 तू मेरे जीवनमें तूर पर्वतका प्रकाश है,  
 तेरी गुलामीकी सनद मेरे सौभाग्यका अमर पट्ठा है;  
 तेरे नक्शे कदमकी ज़ियारतें मेरे काशी और वृन्दावन,—  
 मका और मदीना, हैं,  
 तेरे गुलशनको अपने खूने जिगरसे सीचूँ,—यही मेरी  
 एक आरजू है और—  
 तेरी स्मृतिमें तमन्नाएं वफा लेकर हँसते हँसते मरना ही  
 मेरे जीवनका महान् गौरव-चिह्न है,  
 ऐ बुत, जी चाहे प्यार कर, जी चाहे ढुकरा !

तुम सौन्दर्य हो, और मैं तुम्हारी सुनहरी अलकोंसे झड़ने-चाली सुगंधित धूरि हूँ जिसे देख पराग लजासे पीला पड़ जाता है !

जब केवडे और गुलाबके निर्मल जलसे स्नान कर, गोपी-चन्दनका तिलक लगा, पूजा-गृहमें श्रद्धाङ्गलि अर्पित करने आते हो, मैं सरस्वतीका साकार रूप बनकर तुम्हारी स्तुतिमें समा जाती हूँ ।

पुरातन पुजारियोंका ज्यालामुखी छट पड़ता है !—जब सुरा-सुन्दरीका अधरामृत पान कर राजराजेश्वरकी तरह छूमते हुए इन मणि-मुक्का-जटित महलोंमें प्रवेश करते हो, तब राज-रानी बनकर तुम्हारे आहादित यौवनकी साध बन जाती हूँ !!

यौवन-गर्भितायें तिलमिला उठती हैं । परन्तु, जब तुम प्रियतम बनकर कविकी कल्पनासे परमेश्वर बन जाते हो, तब

मैं प्यासे, थकित, कान्तिहीन नयनोंसे चिरभिखारिनकी तरह तुम्हारे उपासकोंसे दर्शनकी दयनीय याचना करती हूँ !!!

दुरङ्गी दुनिया व्यङ्गका कठोर ठहाका मारकर किलक  
उठती है !

इसीलिये कहती हूँ,—तुम सौन्दर्य हो और मैं केवल  
उसकी धूरि !!

## ४

क्या ससार तेरे त्रैलोक्य-लामभूत सौन्दर्य और तेरे प्रति  
मेरे अगाध अनंत प्रेमकी पवित्र सृतिको यो ही विसार देगा ?

दू इदके नदन-काननमें प्रवाहित होनेवाली मदाकिनीके  
हृत-पटलपर विकसित होनेवाला नील कमल और,—मैं उसकी  
मलयानिल-ताढ़ित तरल छाया और प्रकाशकी भग्न किरण !

भूले पथिक, पियाके घरकी गैल पूछते हो ?

मनोवृत्तियोंके धने कटकाकीर्ण जङ्गलमें झँक झँक कर  
पॉर रखते हुए अपनेको प्रलोभनोंके नर-रक्त-लोलुप हिंसक  
पशुओंसे बचाना,

प्रेमकी डोगीपर बैठ सात समदर पार मरकत द्वीपमें  
पहुँचना जहाँ अनिंद सुन्दरी रानी मायावती राज्य करती है ।  
तुम उस फरफन्दीके कपट-जालमें न फँसना, नहीं तो वह  
छलिया तुम्हे अपनी बलखाई जुल्फोंमें मैणकी मक्खी बनाकर  
कालान्तरतक कैद कर देगी,

शीलकी ढाल पहन, सूरमा, सत्यके खङ्गसे उसके जादूके  
किलेको ढाहकर दूर, और दूर, चले जाना,

मार्गमें अविद्याकी घोर तिमिराच्छादित दुर्गम धाटी पड़ेगी  
जिसमे विषय-प्रिपधरोंका वास है, किन्तु हृदयमें अभय धारण  
कर ज्ञानका दीपक जला उसे पार करना, फिर,

दारुण विरह वेदनाका अगार-विछा ऊबङ्ग-खावङ्ग गगन-  
चुम्बी पहाड़ प्रिश्वासके बलपर लँघना ।

## मौक्तिक माल

तब तुम्हें पियाके अभ्र-शृंग महलका गुम्बज कोटि सूर्योंकी  
प्रभाको लजानेवाला अमल-धवल-अगमके देशमें दिखेगा,

द्वारपर जा तुम अलख जगाना तो प्राण-पियारा स्वय ही  
तुम्हारे स्वागतको दौड़ेगा,

और उसके सर्प-मात्रसे तुम्हारी यात्राके सब कष्ट काफ़र  
हो जायेंगे,

भव-भवकी वाधा मिटेगी !

भूले पथिक, पियाके घरकी गैल पूछते हो ?

## ६

शाहजादीकी मजारपर, हाय ! अब  
पृथ्वी सिर्फ़ कोमल दूर्वादल और पुण्य चढ़ाती है,  
चंद्र सुगंधित द्रव्योंकी धूप भेट करती है,  
चाँद और तारे ज्योतिके चिराग जलाते हैं,  
और बेचारा आसमान शब्दनमके आँसू रोता है !

‘दिनेश कौन थी ?’

—ससारके पुराने पड़नेपर कोई पूछ वैठे !

विधनाके विधान ठीक उतरेंगे,

शतान्दियाँ सौम्य सौन्दर्यसे इठलाती हुई आयेंगी और  
निकल जायेंगी !

एवम्,

अनत यौवन, मुक्त प्रौढ़ और जीर्ण जरा झेंप कर  
चली जायगी,

परन्तु,

दिव्य ग्रेमकी परिमल-किरण ससारकी छिन थातीको  
सुनहले रङ्गसे रागमयी करेगी !

तब,

ससारके पुराने पड़नेपर कोई पूछ वैठे—

‘दिनेश कौन थी ?’

## मौनितक माल

C

मैं तुमसे प्यार कैसे करूँ ?

मैं छलों-विछे मार्गपर गिन-गिनकर तालसे कदम रखने-  
वाली ऐश्वर्य-रानी हूँ, और तुम,—मेरे दिव्य प्रेमीकी स्वर्णिम  
पादुकाके नीचे पिसकर धूल बन जानेवाले तुच्छ रज-कण !

मैं रत्नाकरकी विशाल शश्यापर सोई हुई उष्ण प्रलयके  
सामयिक तूफानको रोकनेवाली महान् शक्ति हूँ, और तुम,—

मेरे कदापि न पिघलनेवाले हिमाचल-स्वरूप उपास्यसे  
टकरानेवाले क्षुद्र बुलबुले !!

भला बताओ तो,

मैं तुमसे प्यार कैसे करूँ ?

मेरे साकी,

घड़ियोंपर घड़ियों बीती जा रही हैं, और मैं निर्निमेष  
नेत्रोंसे द्वारकी ओर देखती रहती हूँ !

दीवालपर छाया-चित्र बनते और विगड़ते जाते हैं, और  
कूचेमें पथिकोंकी पद-ध्वनियों सुनाई पड़ती है।

हृदयकी धड़कनकी भौंति आशा और निराशा मेरे  
अतस्तलमें अपने पख फड़फ़ड़ती है,

देख तो,

इतने मनुष्य घर लौट रहे हैं, और  
केवल तेरा ही अब तक पता नहीं !!

तेरे प्रेमकी अन्तर्जलाने मुझे जला जला कर राख कर  
दिया जिसे वायु इधर-उधर उड़ाती है,

तेरे लावण्यकी तेज तलगारने चमक चमक कर मेरे दिलके  
सौ सौ ढुकड़े कर दिये, जिन्हें तेरे बाज़ और शिकरे बड़े  
चावसे चुगते हैं,

किन्तु, मेरी अजर आत्माका प्रकाश तुझमें ऐसा समा गया  
जैसे फूलमें सुगन्धि, अथवा,

बीणाके तारोमें लय !

रात्रिके सूने मन्दिरमें तारक प्रकाश और कोमल पुष्प मेरे  
अथाह प्रेमको पावन करें !

पठी, तू कौन देशसे आयो ?

मैं अगमका राजहस हूँ,

इस बालुका-मय ग्रदेशमे उड़ते उड़ते मेरे पख छुलस  
गये हैं,

गम-कण चुग नयन-नीर पीते पीते मेरा पीन कलेवर  
क्षीण हो गया है,

चाकित मुग्धे, तुमने तो इस छोरहीन मरुभूमिका सब  
रस खजूरकी तरह अपने हृदयमें ही सचित कर रखा है,

मेरे आतिथ्य और अभ्यर्थनाके लिये दो बूँद न दोगी ? मैं  
अधा जाऊँगा,

आजका रैन-बसेरा तुम्हारे ही मन-मानसमें करने दो,

भोर होते ही पश्चिमकी राह लूँगा जो रात और दिनके  
परे है,

और जहों प्रेम-घन उमड़-धुमड़कर अखण्ड आनंदकी  
वर्पा करते हैं !

पठी, तू कौन देशसे आयो ?

मैंने वेद-वेदान्त, पोर्थी-पुराण, श्रुति और शाख छान डाले, प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्मकाण्ड और सन्यास, कुफ और इस्लामके भिन्न भिन्न मार्गोंका अवलम्बन कर मतमतान्तरके प्रदेशोंका भी जर्जा जर्जा शोध लिया, स्वर्ग और नरक, भूतल और तलातलके रहस्योदाटनमें घण्टों गुजार दिये, साधु और सूफियों, पीर और पैगम्बरोंकी सङ्गतिमें ईश्वरवाद और अनीश्वरवादकी चर्चा चला दिन और रात एक कर दिये, फिर भी,

उस महबूबका कुछ भी पता न पा सकी !

भूख और प्यास, राग और द्वेष, काम और क्रोधसे छटपटाते हुए ससारको जब मैं मिथ्या समझ, मनुष्यको केवल खाकका पुतला मान, हताश हो जाती हूँ तो सहसा मेरी आत्मा बेल उठती है,—

क्या मानवी ओंखे ईश्वरके अतुल तेजको सह सकती है ?  
क्या मानवी बुद्धि उसकी अनत प्रेरणायें समझनेकी क्षमता रख सकती है ? क्या तेरा सीमित मस्तिष्क उसकी अनत महिमाको जान सकनेका दावा कर सकता है जिसका भेद

शेष और शारदाने अनादिकालसे गुण-गान करते रहनेपर भी  
न पाया ?

पगली, प्रेम और विश्वासका पथ पकड़, तू सीधी उसके  
सिंहासन तक पहुँच जायेगी ।

मैंने वेद-वेदान्त, पोथी-पुराण, श्रुति और शास्त्र छान  
डाले तो भी मैं उस महबूबका कुछ भी पता न पा सकी ।

## १३.

अविश्वासके आँचलमे ऊँधते हुए विश्व,

भला तेरे पैर पखारने मैं क्यों आई ?

मुग्ध चुम्बनसे उद्वेलित ! तेरे जालसे निकलकर मैंने  
अनजानमें विराट् बननेका प्रयत्न किया है ।

विश्वपति, यदि मेरे बिना उसे अनाथ होनेका डर है,  
तो तेरी ऋचा इतनी जटिल क्यों ?

१४

जब राग-द्वेषभरे जीवनसे मन उचट जाय, सौन्दर्य और  
सुरासे ऊबकर मृत्युकी बाट देखें, प्रकाश और पुण्य अधकारमें  
विलीन हो जायें,—

और जीव अनत कालरात्रिके अज्ञात, परन्तु, रहस्य-  
भरे द्वीपोंका अन्वेषण करनेके लिये प्रस्थान करे, तब,

तुम्हारी रूप-माधुरी मेरे मृत्यु-उन्नादे नयनोमे समा जाय,  
तुम्हारे चिरतन प्रेमका मगल-प्रदीप मेरी महायात्राका  
बीहड पथ आलोकित करे, और

उसकी सुनहली सृतियाँ मेरा पाथेय बनें !

१५

नंदजूके द्वारपर खड़े रहकर वृपभानु-लल्लीने यह प्रार्थना की,  
“ओ निद्रित ससारके सरक्षक दिक्पालो, उस मवुर शश्याकी  
रक्षा करना, जिसपर सोकर मेरा मुग्ध प्रेमी मेरे स्वप्न देखता है।”

१६:

शाहजहाँने अपनी प्रियतमा मुमताजको चिरस्मरणीय  
बनानेके लिये ताजका निर्माण किया,

प्रेमके इतिहासमें अमर होनेके लिये लैला-मजनू एक  
हो, गये,

शाहजादी जीर्णिका प्रणय-पात्र बननेके लिये फरहाद  
मर मिटा,

प्रेमको भक्तिका अचल रूप देनेके लिये राजरानी मीरा  
दर-दरकी दिव्य भिखारिन वनी, दीपाना मन्सूर प्रेमी बननेके  
लिये, अनलहकका राग अलाप, हँसते-गाते गूलीपर  
चढ़ गया,

पुराने अफसानोंको नया करनेके लिये मैंने तुमसे प्यार  
किया, और,

उल्फतके अगरिपर आई हुई राखको मैंने अपने प्रणयकी  
झँकसे उड़ाकर उसे फिरसे जगमगा दिया ।

यामिनीके कोमल अधकारमें तुम मेरे प्रसूतिका-नृहमें  
प्रवेश कर मेरे भालपर क्या लिख गई, विधना ?

तुम विश्व-नियताकी रचना-प्रणालीसे अनभिज्ञ थों, और  
तुमने मेरे भाग्य-पटलपर ही प्रथम कलम चलाना सीखा था,

विश्व-सूत्रधारकी निर्भीक आलोचनासे घबड़ाकर तुम उठ  
चैठीं, और तुम्हारे महावर-लगे पदाम्बुजोने सियाही उलट दीं,

सुलेख मिट गये,—अब मैं विश्व-पतिके श्रेत वक्षःस्थलका  
वह सियाह वच्चा हूँ जिसकी ओर ससार धृणाकी अगुलीसे  
संकेत करता है !

मेरे भाग्य-पटलपर क्या लिख गई री विधना ?

जगके अभिशापसे जब ग्रलय-प्रसून झड़ जायें, वसंतके  
आनेपर भी कोयल न कूजे,

नायकके पुण्य-शरोंसे उल्कारानीकी तरल मूर्छा न दूटे, और  
समयकी परिवर्त्तनशील गति स्थिर हो जाय तब, मेरे  
साकी, सम्भव है, तुझसे कोई पूछ बैठे, ‘वे कौन थे ?’

ठीक उसी समय तुझे थरथरानेके लिये कठोर आकाश-  
वाणी होगी, परन्तु,

तू अपने प्रति मेरे अखण्ड स्नेह तथा चिर-विश्वासको  
स्मृतिमे रख, अपने आपको सुराके स्तिर्घ ऑचलमें छिपा,  
इतना तो कह देना,—

‘वह प्रेमको पीड़ाके जर्जर जीवनमें छिपाकर पालनेवाली  
सरल पुजारिन थी और वे उसी स्नेह-पूजित शिशुका  
सहार करनेवाले,

‘चतुर सहार-कर्ता ! ! ’

शान्तोदानमें सुनहली धूप पत्तोंकी छायासे ऑखमिचौनी  
खेल रही है,

देखते देखते शीतल मद सुगधित पवनने मार्गमें गुलाबकी  
पँखुडियाँ विखेर दीं,

अब चढ़-शुभ्र तितलियाँ निखरे आकाशमें हृदयोद्धास  
भरकर उड़ रही हैं,

और मेरे प्रीति-सुधा-स्निध हृदयमें प्रेमके प्रवाल-रक्त  
अधरोंपर मँझरानेवाली मद मुस्कानका मधुर स्वप्न रह-रहकर  
झूम रहा है ।

यात्रा कर घर लौटनेपर भी मेरे पैरोंको उस समयतक  
विश्राति नहीं मिलेगी जब तक मैं उसी छ्योढ़ी तक नहीं  
पहुँचूँगी जहाँसे मैं तुझसे विदा ले, बिछोहको रोम-रोममें रमा,  
आई हूँ !

सुरभित सुमनोद्यानमें, यौवनकी प्रथम सव्याको, हँसते  
हुए अधकारमें गन्धर्वराज मुझे वीणा बजानेकी शक्ति देंगे  
और तू—?

उस सुनहली गोधूलिके झीमते हुए धुँधले प्रकाशमें, वह  
चिरपरिचित सङ्गीत सुनकर, चौक पड़ेगा !

तब,—पागल ।

— दीपक हाथमें ले, सङ्गमरमरके शेत द्वारपर, मेरे स्वागतको  
दौड़ेगा तू, और मैं

उस ऐंचभरे प्रत्यागमनकी प्रशस्तामें कुछ गाकर तुझे  
मतगाला बना दूँगी ।

सिरजनहारके अद्वय हाथोंमें ब्रह्माण्ड, मालाके मणियोंकी नाई, फिरते हैं,

पाखण्डी पण्डितो और दीनके दीवाने मुछाओ, आँख उठाकर ज़रा देखो, सोचो और गौर करो ! क्या तुम मत-मतान्तरके झगड़ों और मजहबके पुराने फितनोंको एक बार ही सदाके लिये नहीं दफना सकते ? खुदपरस्तीको खुदा-परस्तीका रङ्ग दे क्यो अपने अन्धे अनुयायियोंको इस मुहब्बतके शिवालेको ढाहनेके लिये उत्तेजित करते हो ? ईमान बेचकर अपनी पाक रूहको शैतानके हाथों सोप अगर तुम कुवेरका खजाना भी पा गये तो वह क्यामतके दिन क्या काम आयेगा ?

अछाह इस कुफ और मुसलमानी दीनोपर बरबस हँसता है, और आँसू बहाता है ! उसके क्रोधसे अपनेको बचाना । या रव, इन मूर्ख पर मकार गुनहगारोंपर रहम कर ।

सिरजनहारके अद्वय हाथोंमें ब्रह्माण्ड, मालाके मणियोंकी नाई, फिरते हैं ।

## २२

रजनीके अवसान-कालमें, जब्र प्रभातकी धूमिल रेखाये  
खिच आती है, मेरी तन्द्रा टूटती है, और,

मैं किसी सुदूर अतीतकी भूली हुई सृतिमें बेगानी हो  
जाती हूँ, हृदयके मूक भाव और्खोमे प्रतिविम्बित होते हैं,  
और उन्हें पढ़कर मेरा प्रीतम कुछ खिन्न-सा हो जाता है,

विचार-धाराके इस प्रवाहको वह थाम नहीं सकता कि  
भला, उसके पार्श्वमें रहकर मैं कौन-सी अलभ्य वस्तु-विशेषकी  
वाञ्छा कर सकती हूँ ? मेरे आत्मसमर्पणमें उसे सहसा सदेह  
होता है, किन्तु, उसके विश्वासको दृढ़ बनानेको मैं कहती हूँ,  
' तू तो उस प्रेम-मूर्तिकी छाया-मात्र है । '

वह सुनकर सन्न हो जाता है ।

रजनीके अवसान-कालमें किसी अतीतकी भूली हुई सृतिमें  
बेगानी हो जाती हूँ ।

## २३

सुप्रभाभरी सध्यामें, जब मैं दिन-भरकी कलान्त वेदनाको विश्राति देनेकी आतुरतासे उडनेवाले गगन विहारियोंको अपने नीङ्गोंकी ओर उडते देखती हूँ, तब न मालूम क्यों मृत्युका काला रुदन गगनकी गरिमामे छाकर मुझे बेबस बना देता है !

निर्मम रात्रिके अचल अधकारमे जब मैं अपने सुख-स्वर्पोंको सजीव करनेके लिये कर-पछवमें खिची विधनाकी टेढ़ी-मेढ़ी रेखाये मिटानेकी चेष्टा करती हूँ तब सहसा न मालूम कहौंसे तमचुर बोलकर मुझे प्रातःकालका आभास करा देता है !

## २४

प्रेमी, तेरे चरणोंपर मैंने क्या नहीं चढ़ाया ?

पुलकित प्रार्थना और प्रशसाका कोमल आनंद,  
यौगनोन्मादित दिनोंका विकसित माधुरी-मञ्जु कविता-पुष्प,

रहस्यमयी आशा, आकाशा, और सृतिके सुनहले स्वप्न,—

मृत शोकातुर वर्पोंकी विभावरी मनोवेदना, उच्छ्वास और  
ऑँसू, शोक और भय,—

प्रेमी, तेरे चरणोंपर मैंने क्या नहीं चढ़ाया ?

## २५

मेरे सुनसान यौवनकी अशान्त घडियोंमें यदि तुम्हे पा जाऊँ  
तो कोटि कल्पोंतक सूर्यको आँचलकी आँडमें कर प्रकाशको  
बॉध रखें,

विद्वृद्धिनकी प्रिप्पम वेदनाको भूल जानेकी चेतना आने तक  
जगतको सुपुसिका स्वप्न दिखाऊँ,

निरतर जीवनका भक्ष्य लेनेवाली भूखी मृथुको हृदयका  
उण्ण रक्त पिलाकर विस्मृतिके पर्देमें आश्वासन दें,

जीवनमें एक बार तुम्हें पा जाऊँ तो रचयिताकी उल्टी  
रस्मोंको बदल कर स्वयं कुच्छा बन जाऊँ !

## २६

मुझपर फलोकी वर्षा न करो, देव,  
मैं तो तुम्हारी अनत दयाका भार वहन करते करते  
जुक गई हूँ,

मुझे वैभवका दान न दो, दिव्य,  
मैं तो तुम्हारी यौवन-परछाईका ओज देखकर ही इठला गई हूँ,  
मुझे अमर होनेका वरदान न दो, वरदाता, मैं तो तुम्हारा  
जीवन देख कर ही जीनेसे अघा गई हूँ !

तेझ्स

सन्ध्या होते ही मैं सरोवरपर जा बैठी,

बिना सावनके ही बदरिया झुक आई,

और घर्षा प्रारम्भ हुई। बड़ी बड़ी बूँदें आकाश-मोतियोंकी तरह उछलती, नृत्य करतीं, और पानीमें मिल जातीं। मैं देखती रही, और मल्हार गान्गाकर रागिनीको लहरोंमें रमाती रही।

सुहावनी सध्या धीरे धीरे नीरव रजनीमें बदल गई। युवती अंधेरीने शश्या बिछाई, मेघने अलके विखेरकर शयन किया,—

मेरे पीछे दामिनी छिप छिप कर उसे निरखने लगी और अकेला पाकर मीठी मुसकानसे उसे रिज्जाने लगी।

समय पाकर उसने सकेत किया,

वह गई,

उसने प्रथम चुम्बनके साथ आलिङ्गन भी किया, ऐसे अभिसारको निहार कर मैं हँस पड़ी।

उसने सुना, वह झेंपी, मुसकराई, और फिर मुझीपर दूट पड़ी।

विदेशके लम्बे प्रवासको समाप्त कर जब तुम घर लौटो,  
तो इस कुटियाको पावन करना न भूलना, जहाँके जलते  
हुए चिरागको गुल कर, रक्तके तिलकपर मोतियोंका शृगार  
सजा, चेतनाहीन यौवनमें प्रणयके प्रथम चुम्बनका उन्माद  
चढ़ा, विदा हुए थे ।

तुम्हारे गमनमें उत्साहके आकुल पर लगे थे, और मेरे  
हृदयमें वेदनाका अथक ज्वार उठ रहा था । मैं न पूछ सकी,  
' तुम कहाँ चले और फिर कब लौटोगे ? '

पर,

तबका प्रदीप बुझा पड़ा है, और मैंने उसे अपने आप  
प्रज्ञलित करनेकी कल्पना तक नहीं की है ।

प्रवाससे जब घर लौटो तो इस कुटियाको पावन करना  
न भूलना ।

मुझे दुकरानेवाले, तेरा जीवन प्रकाश-पूर्ण हो, सदैव  
तू सानद सुरभित प्रभातका अभिवादन कर, परन्तु,

भाग्यका धूमता हुआ ताण्डवकारी राजदण्ड किसे छोड़ता  
है<sup>१</sup> कालके कुटिल चङ्गुलमे फँसकर कहीं तू अपनी उभरती हुई  
विभूतियोंसे बिलम जाये,—वचित हो जाये, तब सम्भव है,—  
भूले भोगी,—

सम्मान हँसी, और जीवन भार प्रतीत हो, मित्र शत्रुकी  
गरज पालें, और हृदय-हीन ससारके लोलुप श्वान तेरी  
आत्माके वीतराग-पटपर कालिख पोतें,—उसे धेरकर घोर  
घृणाका भयकर चील्कार करे,—तब हँ, तब सम्भवत,—

मेरे प्रेमी, तुझे यह सूझे,—

‘ उस पार मेरा एक स्नेही है, निर्वासित हृदय है ! ’

मैं नितान्त अकेला ही क्यों न होऊँ,—मेरी सात्वना और  
सराहनाके लिये भले ही कोई क्यों न हो, परन्तु,

ससार-सागरके उस पार मेरी डोंगीकी रखवाली करता  
हुआ एक अभिन्न है,

जिसका मुझमें अखण्ड विश्वास है,

वह मेरी अनत यात्रामे अततक अपश्य साथ देगा !

अलमकी फौजने मेरा गुलशन उजाइ दिया !

कहों गये वे मधुप जो इठला इठला कर मेरे चमनकी कलियोंका रसास्वादन करते थे ?

कहों अतर्हित हुए वे बुलबुल जिन्हें यह उल्फतका उधान था सदा मुवारक, और जहों गूँजता था रात और दिन प्रेमका राग उनकी जबासे ?

कहाँ वसती हैं अब वे सूरते जो इस बोस्तोंमें झूम-झूम कर चॉटके प्यालेमें अगूरका आसव पी पी कर वैसुध हो जाती थीं ?

ऐ मेरी विगड़ीको बनानेवाले,

अगर मैने मौसमे वहारमें, अपने शबावमें, तुम्हें अपनी प्रेम-वाटिकामें, सघन वृक्षोंकी शीतल छायामें, तुम्हारे जीवनकी अलसायी दोपहरीमें, सोने दिया, और पत्र-फल-फल और अर्थसे तुम्हारा आदर-सत्कार किया, तो, बछाह, क्या हुआ,— कोई सृष्टिके योग्य सेवा तो थी नहीं ?

मेरी जुस्तजूमें अपनेको वर्वाद न करो,

मेरे पास अब सिंगा खारोंके बचा ही क्या है !

अलमकी फौजने मेरा गुलशन उजाइ दिया !

सत्ताइस

सॉज्जकी भरी बेलामें जब सूर्य, गिरि-शिखरोपर द्रवित  
अकाशकी निर्झरिणी वहा, अपना किरण-जाल समेट, क्षितिजके  
ऑचलमें रैन-बसेरा ले,

कमल अपनी कोमल सुगधभरी पेंखुडियोंको बंद कर प्रशात  
सरोवरकी मञ्जु जल-राशिपर दिन-भरकी क्लातिसे व्याकुल  
हो धीरेसे ढुलक जाय,

नृत्य-कला-विशारद मयूर भी सूर्यस्तके सात रङ्गोको  
अपनी पूँछमें गैथ किसी सघन वृक्षकी ऊँची डालीपर गहरी  
विश्रातिकी खोजमें ऊँधने लगे, तब,

ग्रीतम, तुम भी अपने वैभवका अत कर मेरे सुगधि-सिंचित  
केग-कलापमें आ रात व्यतीत करना,

मेरे वक्ष स्थलमें आहिस्तेसे आ छुप जाना, वहाँ तुम्हारे  
झुलसे गात और जीर्ण आत्माको उपाके स्वर्ण-युग तक  
अनिर्वचनीय शान्ति प्राप्त होगी !

‘भूलन हेतु पढ़ो,’—किसी प्राचीन कालके पण्डितका कथन है,

निर्दयी विधाताकी कूर कुटिल चाले, दिव्य देवताओंकी सुग्र भानवोंके प्रति अगाव घृणा,—भूल जाओ !

काल शीघ्र इस कहानीका अंत कर देगा । रुधिरके ठडे पड़नेके पूर्व माधवीकी प्याली भरो, अलसाये हुए सौन्दर्यके मधुर चुम्बनसे, रक्त-कनेर-से कोमल अधरोंसे, नागिन-सी लटोंसे, भूलकी शराब तैयार करो !

किन्तु,

तू मेरी प्याली भरेगा, मेरे साकी, पृथ्वीकी अनत सुपमा और आहाद ही मदिरा होगी । सत्य और शाति, प्रेम और पवित्र आनंदके दिव्य धूटमें भर भर जाम पीऊँगी ।

मुझे क्या भूलना है—?

तुझे देखते ही मैं अपनेको भूल जाती हूँ ।

## ३३

अखिलके विश्वासशून्य पटलपर मुझे सुलाकर न मालूम  
तुम कहाँ जाओगे ।

सङ्ग-तराशकी मेहनतपर रहम खाकर समयके पूर्व ही  
दिवाकर झूव जायेगा,

मृणालिनी मधुकरको अपने हृदय-कोशमे कैद कर प्रणयके  
सुखद स्वप्न देखेगी ,

मूँदे नेत्र खोल उछक धूम मचावेंगे, निशिगंधा खिलकर  
मेरे विस्मृत आजासमें सृतिकी विष-बूँदें छोट देगी, मानव  
आकृतिमें तुम्हें खोजती खोजती स्वय खो जाऊँगी,—

और सब होगे, केवल तुम ही न होगे ! हाय ! अखिल-  
विश्वके विश्वास-शून्य पटलपर मुझे सुलाकर न मालूम तुम  
कहाँ जाओगे ।

मुझे कहाँ चलनेका सकेत करते हो, अज्ञात<sup>१</sup> सर्वत्र  
अभेद अन्धकार है,

मेघ-सघन आकाशमें एक-आध तारा गोरे-नारीबोंके बुझते हुए  
चिराग-सा टिमटिमा रहा है, और मार्ग है मेरा अपरिचित ।

तुमने तो असमयमें ही कूचका डका बजा दिया, अरे,  
मिलनकी मधुर घड़ियोंमें यह कठोर नाद कैसा ?

कूर, न हँसो,—इस सुहावने समयमें मुझे तुम्हारा यह  
विद्रूप हास्य नहीं भाता ।

हाय ! अभी तो कुशल-क्षेम भी न पूछ पाई थी कि तुम  
काल-दूतकी तरह आ उपस्थित हुए । यौवनकी सुपमा समाप्त  
होनेतक मैं तुम्हारे संकेतकी अवहेलना करँगा !

मुझे चलनेके लिये वाघ्य न करो, अज्ञात, मैं तुम्हारे पैरों  
पड़ती हूँ ।

## ३७

पके आमकी तरह मृत्युकी गोदमें टपकँगी !

शैशवके सहज स्नेहकी अमिट सृतियों, अचेतन मुखाका  
अथक प्रेम और उसकी श्रुति-मधुर सुनहली कहानी,  
रूपगर्वित यौवनका स्वमिल परिमिल और असीम विरह-वेदना,  
प्रौढ़का जीवन-मन्थनसे निकला हर्ष और विपाद, विप  
और अमृत, और,

जराका ज्ञान,—नहीं नहीं अभिशाप, जीवन-तरुके इन  
प्रसूनोंको अपनी झोलीमें भर पके आमकी तरह मृत्युकी गोदमें  
टपकँगी ।

## ३८

मेरे प्राण तुम्हारे बिना कैसे जीवित है ?

बिना ही सनेहके तारे जलते हैं,

बिना ही काष्ठके निरतर चिन्ता सुलगती है,

धधकती चिताये बिना ही नीर शीतल हो जाती है,

स्थूल साधनोंके बिना भी सुन्दर सृजन होता है, सकेत-  
कर्त्ताके अज्ञात होनेपर भी मृत्युका कार्यक्रम नियमित होता है,  
ऐसे ही तुम्हारे बिना भी मेरे प्राण जीवित हैं ।

मुझे मृत्युसे भय लगता है क्योंकि मेरा जीवन-घट पापोंसे भरा है,

मैं प्रायश्चित्तसे दूर भागती हूँ क्योंकि मुझे स्वर्ग-सुख भोगनेकी वाढ़ा नहीं,

मुझे उसे अपना कहनेमें भी सकोच होता है क्योंकि मेरे प्रणयमें स्वप्रेरणाओंका आधिक्य है,

मैं उसके निकट जानेसे घबराती हूँ क्योंकि उसके सहवासकी सुख-कल्पना-मात्रसे सिहर उठती हूँ !

हमारी सङ्गीत-छहरी कोकिलको मुग्ध नहीं करती, किन्तु उसकी कूजन सुन हम क्यों झूम उठते हैं ?

हमारा वस्त्राभरणालकृत सौन्दर्य वस्तमें प्रकम्पन उत्पन्न नहीं करता, फिर भी हम उसके आगमन-मात्रसे क्यों वेसुध हो जाते हैं ?

मृत्यु जीवनकी अपहेलना और उपहास करती है, तो भी, न मालूम, क्यों पल-पलपर वह निगोङ्गा अचरजभरी उल्कठासे उसकी ओर खिचता जाता है ।

स्मशानके नीरव हृदयपर बैठकर बुलबुलने गाया,  
 ‘ कुमुदिनी निस्तब्ध रजनीकी भ्रमर-काली पलकोंमें सुरमा  
 सार रही थी,  
 ‘ चाँद ज्योतिके ओचलमें छिपा तारिकाओंसे गगन-मण्डलमें  
 क्रीड़ा कर रहा था,  
 ‘ मैं पुष्पोंका बृंघट निकाल संकेत-स्थलपर अभिसारके  
 लिये चली,  
 ‘ चार ओखें होते ही मैं झेप कर ठिक गई,  
 ‘ उमरते हुए प्रेमोद्धारोंका उल्हना देनेके पूर्व ही सुरभित  
 आसमें आस मिलाकर उन्होंने पूछा, क्या चाहती हो ?  
 ‘ मैंने रोमाञ्चित हृदयको थाम कर कहा—मृत्यु ।  
 ‘ अधरसे अधर मिले,—  
 ‘ मैं अचेत हुई, और मेरे प्राण-पखेलू उड़ गये । वह  
 सुखद स्वप्न इस बुलबुलके जन्ममें भी मेरी सृति पटलपर  
 ज्योंका त्यो अकित है ।’

मन-मृग काहे डोलत फिरे ?

तृष्णाकी तस मरुस्थलीपर मध्याहुका सूर्य चमक रहा था,  
तुपा-छान्त मृग सुन्दर क्षितिजके उस पार शीतल जलके  
स्रोतपर हाँफता, चौकड़ी भरता, अपनी प्यास बुझाने चला  
जा रहा था,

एक मृग-शावक-नयनीने आकाशको भेघ-शीतल करनेके  
लिये सारङ्ग छेड़ी,

नादका प्रेमी, भोला जीर, रागके प्रवाहमें बहता बहता  
उस युवतीके निकट पहुँच गया, परन्तु, पथ-भ्रष्ट हो वह उस  
विशुद्ध जल-स्रोतसे भटक गया जो उसे ज्ञानामृत पिलाकर  
अनत शाति देता !

मन-मृग काहे डोलत फिरे ?

चाँदनीमें लवलीन चकोर जब चद्रपर निशावर होनेको  
आकुल होता है, तब आकाशके यौवनोद्यानमें क्रीडागना  
तारिकायें न जाने क्यों हँसती हैं !

जब भीरे भोले सुमनोंको तरसा तरसा कर इठलाते हैं, तब  
अनतके दीर्घजीवी ज्योति विहार करते हुए भी न मालूम क्यों  
निष्पास रखते हैं !

जब सूने खेतमें अन्नदाता पसीना सीचते हैं, तब वे माधवीके  
बूँट पी, साकीके चरण क्यों चूमते और छटपटाते हैं ?

जब वर्षा आती और चली जाती है, तब है सरोवर,  
तेरे तटपर, धने कुञ्जमें, न जाने क्यों मैं दो पक्षियोंकी  
कल्पना करती हूँ,—उन्हें गगन-विहारी पाती हूँ, और,

यह जानकर सिहर उठती हूँ कि उनमेंसे एक मुझे देख-  
कर न जाने क्यों रोता, और दूसरा क्यों हँसता रहता है !

## ४४

पुण्य प्रस्फुटित होकर ही जीवनकी साध मिटाता है,  
मुरलिका मदनमोहनके अधर-स्कुलके कोमल चुम्बनसे ही  
मदभरी हो प्रमुदित होती है,

कविता अपना प्रशस्त पाकर ही अमर काव्यका रूप लेती है,  
बालक वात्सल्य पाकर मौकी आकृति भूल जाता है,  
प्रेमी पानेपर ही रूप और यौवन अपनी पूर्ण माधुरी  
आस करते हैं,

तुम्हारे हाथसे गिरकर चूर चूर होनेमें ही मेरी माधवी-भरी  
जीवन-प्यालीका अखण्ड सौभाग्य है !

## ४५

श्रोता न हो तो भी गायक अपनी एकान्त तन्मयतामें  
उड़ात आनंदका अनुभव करता है,

पूजा स्वीकार करनेवाली प्रतिष्ठित सजीव प्रतिमा न हो तो भी  
पुजारिन अपने ध्येय तक कल्पना चढ़ाकर ही तुष्ट हो जाती है,

प्यासेके लिये निर्मल नद हो, तो भी, मृग-मरीचिकाकी  
ओर ही लम्बी लम्बी डगें भरनेमें विचित्र आहाद है !

गोरी, रूपसीके प्रकाशमें मोती पिरो ले !

इन चद्रमणि-सी दिव्य ओँखोंपर मत इठला जिनमें  
प्रकृतिकी सब सुषमा भरी है,

इस धुंधराले काले केश-कलापपर भी न इतरा जो सुगवित  
समीरके साथ अठखेली करता है,

तेरे गोरे गुलाबी गालोंपर भी इतना गर्व न कर जिन्हें देख  
फारसके गुलाब भी ईर्पासे बदरग हो जाते हैं,

न उन अनमोल मोतियोंकी लड़ियोपर ही अभिमान कर  
जो हास्यके साथ ही तेरे रक्त-अधर-गुलाबोंमे धवल तुपारकी  
काति लिये चमकती हैं,

रूपगर्विता, उस चॉदसे मुखझेपर भी इतनी न फूल  
जिसकी धुतिसे सब नक्षत्रोंकी ज्योति निस्तेज हो जाती है,

न उस सितम ढाहनेवाली मोहिनीपर ही,—जो सब  
हृदयोंको तेरे बन्दी बना देती है,

गोरी, ‘चार घड़ीकी चाँदनी, वहुरि औंधेरी रात,’

रूपसीके प्रकाशमें प्रेमका मोती पिरो ले !

यहाँ मेरे सुन्दर दिन कितने शीघ्र पूरे हो जायेगे, और  
फिर मैं पृथ्वीपर कभी हूँड़े भी न मिलेंगी ।

मेरे भटकते भगवान, बताओ तो, मुझे कहाँ हूँड़ोगे ?  
न कलकल करनेवाली कछिन्दजाके शीतल कूलपर, न वहाँ  
जहाँ वायु वॉसोंके सुरीले कानोमें अपनी विभावरी-कहानी  
कहती है, न धनी पहाड़ियोंके देवदारु-सुगधित वनमें, न  
वनस्थलीपर जहाँ मधुमय मकरदके लोभी भ्रमर गुजार करते हैं  
और रङ्गीले ग्वाल-त्राल वाँसुरी वजा वजा कर अपनी विखरी  
और झूमती गउओंको गोधूलीमें एकत्रित कर घर ले जाते हैं !

मेरे माधव, कहो न मुझे कहाँ खोजोगे ?

मेरी इन बावली वतियोंकी बात सुनोगे क्या ? मैं वचिता हूँ,  
जीभनकी लौ मृदुल मृत्तिकाके दीपकमें शीघ्र बुझ जायेगी,  
मनोवेदना, प्रेम, लिप्सा और तप आँसू मुझे दग्ध कर रहे हैं।  
शीघ्र ही उस अधकारसे वह सौरभ-प्रगाह मुझपर बहेगा,—  
फिर ये तरल-तारिका-कान्त किरीटेन्दु और तेजोमय तमारी  
भले ही हूँड़े,—परन्तु,

मेरे मौला,

यहाँ मेरे सुन्दर दिन कितने शीघ्र पूरे हो जायेगे और फिर  
मैं हूँड़े भी न मिलेंगी !

४८

मेरा अतिम प्रणाम स्वीकार किये बिना ही तुम एकाकी कहाँ चल दिये ?

तुम्हारे मर्माहत करनेवाले सहसा गमनसे मैं विस्मित न हुई, अप्रतिभ न हुई, विचलित न हुई, क्योंकि मैंने जाना कि तुम जानेका अभिनय कर कहाँ छिपे हो, और मेरे खठनेकी आशका-मात्रसे थर्राकर पीछेसे आ, मेरे नयन मूँद, हँस पड़ोगे !

मैंने तुम्हारे इस अनत-गमनको न समझा, यात्री,  
तुम तो नेह लगाकर ब्रिना ही ब्रिदा लिये चल दिये !

४९

मालिन, इन अर्धविकसित बकुल कलियोको मत छेद,  
ये तो मधुकरके चुम्बनसे मलिन हो चुकी हैं,

इस कोमल दूबको भी तेरी डलियामें न भर क्यों कि वह ओसाश्रुओंसे भीगकर विकृत हो गई है,

ये बेल-पत्र भी मेरे देवता स्वीकार न करेंगे क्योंकि इनमें भी समीरका कम्पन व्याप्त है !

मेरे उपास्यके लिये तो चाहिये अद्भूता उपहार । मालिन,  
इन बकुल कलियोको न वेध !

गोपिका, नीर और क्षीरको मिलाकर मुझे धोखा न दे,  
क्योंकि, मुझमें हसका पिवेक नहीं है !

स्थावर ससारपर प्रात कालकी गो-धूलि छा गई है,

ग्वाल-बाल गायें लेकर यमुना-तटकी बनस्थलीकी ओर गये  
हैं, और कदम्बकी छाँहमें ऑख-मिचौनी खेल रहे हैं,

तेरे आँगनमें ग्वालिन प्रभाती गा-ना कर उपले  
थाप रही है,

मैं समयको बाँधकर तेरे द्वारे दूध लेने आया हूँ,

नीर और क्षीरको मिलाकर मुझे धोखा न दे, क्योंकि  
मुझमें हसका विवेक नहीं है !

मैं अज्ञात थी !

हृदयमे राग-कलीका अर्ध-आवृत्त मुख विकसित हुआ ही  
चाहता था,

यौवन-वस्त शरीरोद्यानमे कातिमय लावण्यकी वहार  
लाया था,

उन्मनी आँखें अपना चाचल्य छिपानेमे असमर्थ थीं,

मन-भृकर जीवन-वाटिकामे पुष्पोकी चाटमें इधर-उधर  
भेड़राने लगा;

रङ्ग-विरङ्गे सुमनोंकी शोभा दर्शनीय थी ।

उपवनका वह यौवन-विहार । कुछ दूर उड़कर मेरी दृष्टि  
एक अर्ध शुष्क नीरस नलिनपर पड़ गई, ज्ञात न था कि वह  
सौरभ-हीन है,

हृदयका वह मूक दान !

गुलाब छोड़ा, बेला छोड़ा, और कुन्दवनकी ओर देखा  
तक नहीं,

उसीके म्लान सौन्दर्यपर मुग्ध हो गई ।

वह पागल पिपासा !

उसे ग्रास करनेको हाथ बढाया, सूँघनेका प्रयास किया,  
तोडकर ऑचलमें छिपाना चाहा, आलिङ्गन चाहा, मधुर  
चुम्बन चाहा !

परन्तु दुर्दान्त दुर्देव !

सहसा लाल ऑखें दिखाते हुए मालीने प्रवेश किया,  
मैं ठिठककर एक ओर खडी हो गई,  
कूर हृदयहीनकी कृपासे निराशाके अतिरिक्त कुछ भी न मिला,  
सोचा था उसे सामधानीसे रक्खँगी, और समय आनेपर  
मैं उसे अपने हृदय-पुण्पके साथ ही मातेश्वरीके चरणोंपर  
चढ़ा दूँगी,—

परन्तु, पागलका तिरस्कृत प्यार !

उसीके चिन्तनमें दूब गई, पिहल हो गई, बौरा गई,  
छोटी-सी कुसम-कालिका तो थी ही !

क्या करती ?

विरह-निदाघने ग्रस्तुटित होनेके पहले ही कुचल दी !

मुरघ प्रेमियोका अतिम ध्येय ! ग्रेम-पथपर कॉटे विछे,

महायात्रा प्रारम्भ हुई, पैरोंसे रुधिर बहा, परन्तु,

अज्ञानका पर्दा हटा, मैं रुकी, प्रकाश दिखा,

मैं चौंकी !

अज्ञातके ऐसे प्यारका जय-जय-नाद हो !

## ५२

अनमोल अनुपम,

क्या तू वह पका, लाल झाई लिये हुए, पीला आम है जो सबसे ऊँची डालपर लगा हुआ है और जहाँ मुख चयक इच्छा होनेपर भी नहीं पहुँच सकता ?

फिर भी क्या मैं तेरा चयन न करूँगी ? क्या तू वह कमल कोष है जिसे गोवर्धनके ग्वालेने पैरोंतले रौद कर जमीनमें कुचल दिया है ?

फिर भी क्या इन पलकोंके ग्रकम्पित पाँवड़ों-द्वारा तुझे मैं न उठाऊँगी ?

अरे ओ बेवफा,

प्रेमके मर्मको पहचाननेके बाद, प्रेमी मिले या न् मिले, परवाह नहीं पॉख हुमाकी !

## ५३

आकाशमें वसनेवाले जालिम,  
तेरे ज़िल्हादका ख़ज़ार मेरे सरपर झूल रहा है, तो भी, मेरी  
हकीकत तो सुन ले,

जीवन और मरणके विधाता, मुझे अमर गुलामीकी  
बेड़ियोंमें ज़क़इने, और तेरी अवैध सत्ताको मुझपर आजमानेके  
लिये ही तो तूने विश्वकी रचना की है, फिर बता, मैं तुझसे  
न्यायकी आशा कैसे रखूँ ?

मेरी जबानमें तेरे जुल्मोंकी व्याप्त्या करनेकी शक्ति नहीं  
है, इसलिये तेरे अत्याचारोंको, अब तक, मैं बिना किसी  
प्रतिरोधके सहती चली आई हूँ !

ऐ सङ्गदिल, तुझे मैं कैसे दयासे द्रवीभूत करूँ ?

देवता, अपने अद्वय और सुरक्षित स्वर्गसे मुझपर निरतर  
कुछिश वरसा ।

मैं अबला तेरे सिंहासनकी छोरहीन छायामें खड़ी तेरा  
क्या अनिष्ट कर सकती हूँ ? तू ही विधान, तू ही न्यायाधीश,  
और तू ही सरको धड़से जुदा करनेवाला ज़िल्हाद है,

फिर, तुझसे इन्साफ पानेकी उम्मीद रखना बौनेका चाँदको  
चूमनेके लिए छटपटाना है !

प्रेमी, तेरी आँखोंको किसकी उपमा ढूँ ?

ओजसे उभरते हुए अरुणसे देती, किन्तु, तेरी नयन-  
किरणोंके सामने उस गुलाबी विष्वकी क्या हस्ती ?

प्रेमी, तेरी आँखोंको किसकी उपमा ढूँ ?

जलजसे देती, परन्तु,—कीचड़िमें हीनेवाले राग-हीनोंकी  
क्या हस्ती ? वे तो उनकी सुनहली रस-बूँदोंसे ही सुखरित  
हुआ करते हैं !

ऋषि-मुनियोंने सुपमा-सुन्दरीके नख-शिखको जान लिया;

कोविद-कवियोंने विश्वके हृदयको छितरा दिया,

देवताओंने स्वर्गकी सार-हीन धूलिको छान डाला;

युग्युगान्तरसे विहंगोंने अमर-स्तोत्र कछरवमें गा डाले—  
परन्तु, तेरे नयनोंके लिये मुझे उपमा न मिली !

मैं हार जाती हूँ, और मुस्करा उठती हूँ,—शायद इसी  
भावनामें कहीं तेरे नयनोंकी उपमा छिपी है !!

## ५७

प्रेमी, सन्ध्यामें वायु मन्थर गतिसे पिचर रहा है, तब  
तेरे आगमनमें क्यों विडम्ब हो रहा है ?

दिनकी कड़ी धूपमें तपे हुए तमाल शात और शीतल  
अधकारमें कीम्पित हो रहे हैं, और

सीनेतक पहुँचनेवाली बर्ल भी सन्ध्याके गोधूलि-कणोंमें  
अपनी दोपहरकी अतृप्ति पिपासा बुझा रही है—

पर मैं,—

केवल मैं ही कभी न बुझनेवाली आगमें जल रही हूँ !

निर्मम निशाने मुझे घोर विडम्बना, और मेरे विलमये  
प्रेमीने मुझे विरहका धधकता दानानल प्रदान किया,—

ओ वरदाता,

मेरी पूजाका यह वरदान भी क्या अमर न होगा ?

मैं तो अपनी करतूतोंसे खुद ही खीज उठी हूँ, न माल्हम  
तुम उनपर क्यों दीवाने हो ?

इस विराट् जीवनकी जटिल गुणियोंको सुलझानेका प्रयास  
न करो, पागल, उनीदे यौवनसे जवनिका उठाकर छिद्रान्वेषण  
करनेसे तुम्हारी आत्म-तुष्टि न होगी;

प्रौढ़के कल्पना-कलित् स्वनिर्मिति चित्रोको देखकर तुम  
प्रभुदित न हो, मेरे अर्चक,—

वे तो भविष्यको केवल भुलानेके असफल प्रयास हैं ।

मैं तो अपनी काली करतूतोंसे खुद ही खीज उठी हूँ,  
न माल्हम तुम उनपर क्यों दीवाने हो !

ओ लीनी ललने,

ढाकेकी मलमल, बनारसके रेशमी दुपट्टे, और काश्मीरी  
शाल तेरे लिये लाया हूँ जिससे तेरे दीप-शिखा-से सुरम्य  
सौन्दर्यकी शोभा अनुपम हो जाय,

वासती वामा,

सुपर्णकी कंधियाँ, सप्तरङ्गी धागे और रत्नजटित आभूषण  
मेरी मञ्जूपामें रखे हैं, देख, कहीं यह मत समझ जाना कि  
तेरा प्रेमी खाली हाथ आया है,

और ओ कुडगलीकी चितचोरटी,

बृन्दावनसे मैं एक ऐसी मुरली लाया हूँ, जिसमें विद्याधरोंने  
प्रेम, आकाशा और वाढ़ा छिपाई है—

ऐसी महिमामयी मुरलिका तेरे करारविन्दोंमें मैं  
अपित करूँगा !

यौवन ! अरे उस दीदार-सा यौवन और हुस्न न कभी किसीका था, न होगा,

उस सौन्दर्यकी समता वे देव-बालायें भी नहीं कर सकतीं जो स्वर्गद्वारपर पुण्यात्माओंका पवित्र चुम्बनसे स्वागत करती हैं,

उसके आकर्ण-नेत्रोंसे आनन्द, ज्योति और हास्यके फल्बारे छूटकर सबको मुग्ध कर लेते थे और उसके सङ्खीतको सुन-कर आकाशमें विचरण करनेवाले देवदूत भूतलको स्वर्ग समझ भूलसे नीचे उतर आते थे,

उस अनुपम सौन्दर्यकी सृति मात्रसे आज कितने स्वप्न जाप्रद होते हैं !

उस दिव्य स्फटिक-निर्मल सरिताके पुलिनपर खड़े रहकर दो चुल्द्ध पानीसे अपनी अथक प्यास बुझानेका कभी मेरा सौमाग्य था, जहाँ, हाय, आज केवल शुष्क रेणुका ही सुदूर-तक फैली हुई है !

यौवन ! अरे वैसा यौवन और हुस्न न कभी किसीका था न होगा ।

‘यदि विधाता केरीगाला बनकर तेरे द्वारपर स्वम वेचने  
आवे तो, सखि, तू क्या लेगी ?’

‘कलिन्दजाकी सुदूर कैली हुई रेणुकापर शरत्-पूर्णिमाका  
चाँद सुधा बरसावे,

‘राधिका-रमणके साथ सब्र ब्रजबाला मिलकर रास रचें,

‘बृन्दावनके कुञ्ज और यमुना-पुलिन उस नटवरकी मुरली  
और गोपियोंकी ‘किकिणि-चुरि’ धनिसे कूर्जे,

‘विकसित मछिकाकी सुगधसे पवन महक उठे, और

‘मेरे नयन-चकोर नदनंदनकी उस छविको निर्निमेप  
निरखें—

‘दिलजानी मेरी, वस यही ललित स्वम मैं उस पिच्चित्र  
विसातीसे मोल लेकर उस नयनाभिराम घनश्यामकी सलोनी  
सूरतके विरहमें दिनरात तड़प तड़प कर अपने प्राण निछावर  
करूँगी !’

## ६२

कालिन्दीके कूलपर मोहन ग्वाल-बाल-सङ्ग बॉसुरी बजा रहे  
थे मुझे अकेली छोड़कर,

मैं तो रात खठी थी, पर क्या करती ? अधीन्सी होकर  
पीछे पीछे चली,—

कुज्जमें कल कूज रहा था, मुझे देखते ही वे दौड़ पड़े,  
और मनाते हुए बोले,

“ चलो रास रचेंगे । ”

मैं क्यों जाऊँ ? बिन बोले ही अपना घड़ा उठा चल दी !

मोहन न रह सके, आखिर मोहन ही तो ठहरे ! ग्वाल-  
बालों-सहित चुन-चुनकर ककरियाँ फेंकी—

मैं झुँझलाकर बैठ गई !

मेरा घड़ा गिर पड़ा, और निर्मल जल हुलक हुलक वहने लगा;

मैं चौकी, जल्दीसे औंधे घड़ेको उठा लिया, हा ! केवल  
चुल्द्धमर पानी उसमें शैषथ था !

विशाल विश्वमें वह चुल्द्धमर पानी ही तो श्रेम है !

## ६३

मधुमासमें भौरोंसे ढके हुए गुलाबके रङ्गमें जो ज्ञान,  
ओज, आनंद, माधुर्य छिपा हुआ है, उसके शताशको भी,  
आजतक कपि-खदोत तो क्या, कविता-कामिनी-कान्त कालिदास  
भी नहीं वर्णन कर सके हैं,

वर्षाके वैभवपूर्ण आरम्भमें जो जादू हरी घासमें पतन पैदा  
कर देता है, वह न तो वैजू वापरेकी सितारमें और न  
तानसेनकी सङ्कीर्त-कलामें ही पाया जा सकता है,

बाँसुरीके सुरीले छिद्रोंमें जैसे लय मिली रहती है, ओर  
वहोंसे मस्त करनेवाला मधुर गान निकलता है, वैसे ही दो  
प्रेम-मिले हृदय ही इस रहस्यका आस्थादन कर सकते हैं !

सजनी, मेरा प्रेमी बल, पौरुष, और सौन्दर्यमें वृन्दारकोंसा  
दिव्य है, उसकी आराधना ही मेरे जीवनकी साधना है,  
मेरे हियकी थाती !

आह ! जब हरे-भरे वक्षस्थलमें मेरा हृदय-पक्षी पख  
फङ्गफङ्गाता है, तब मैं उसे केवल क्षणके लिये देखने जाती  
हूँ, और मेरी शब्दोच्चारणकी शक्तिको लकुत्रा मार जाता है,

जीवनकी साधना एक बार ही समाधिस्थ हो उठती है,

मेरे अङ्ग-प्रत्यङ्गमें एक रहस्यमयी आग धू धू कर सुलग  
जाती है,

मेरे विशाल लोचन प्रकाश खो बैठते हैं, और मेरे कानोंमें,  
भगवान जाने, वे क्या क्या गुनगुनाते रहते हैं,

मेरे तन-मन-प्राणमें कदलीकी तरह कॅप-रूपी होने लगती  
है, तथापि,

बीहड जगत्की यात्रा !

अद्भुत साहस कर मुझे उसकी आराधना वैसे ही करनी  
पड़ती है, जैसे महोदधिके सौन्दर्य, रहस्य, और अज्ञात द्वीपोंके  
आपिष्ठारके लोभसे उत्साहित होकर मछाह मृत्यु-क्रीडित

## ६७

चैती पूर्णिमाकी चारु चद्रिका धरणी-तलपर फैले, उसके पूर्व ही, सौँझकी कुन्दभरी बेलामें, वह व्योम-यानपर बैठ कर, मेरे द्वारपर तोरण मारने आयेगा,

मैं नख-शिख तक शृगार कर किखाव और जरीके बहुमूल्य वस्त्र पहनूँगी,

और मेरे सीसपर स्वर्ण और मोतियोंका सेहरा सोहेगा, जिसमें श्वेत और रक्त गुलाबकी कलियाँ गुरुथी होंगी,

चिर प्रतीक्षासे प्रेम-मिहळ होकर मैं सुमनोंसे सजी हुई आरती उतार उसका स्वागत करूँगी, वृद्ध पुरोहित गोधूलिमें लग्न साधेगा,

और मेरा प्रेमी भाँवरें भर, उल्कठासे द्वैतका धूँघट मेरे मुखसे खिसका, मुझे उस अज्ञात लोकको ले जायेगा जहाँसे लौटकर फिर कोई इस जन्म-मरणकी चक्कीमें पिसने नहीं आता !

वर-वधूका वह चिर-मिलन कितना सुन्दर होगा !

## ६८

तारे एक एक कर बुझ गये, किन्तु रजनीका अपसान न हुआ !  
जराके मोहन्य प्रागणमें प्राण अटके थे, नश्वर ४

बूढ़े व्रह्माने मुझे अपनी रसायनगालामें पञ्च महाभूतोंको मिलाकर निर्माण किया और फिर चाकपर चढ़ा, मेरे भाग्यमें न माल्हम क्या टेढ़ा-मेढ़ा लिख दिया ।

इस मृत्तिकाके क्षणभगुर पात्रमें अनत जीवनकी लौ जला उस निर्दियेन मुझे संसार-समुद्रके वक्षस्थलपर पाप और प्रलो-भनोंके आँधी और तूफानसे निरन्तर युद्ध करनेके लिये छोड़ दिया । कहाँ वह पल-पलमें परिवर्त्तन होनेवाली सुदूर कैली हुई छोरहीन गम्भीर जलराशि, और कहाँ मैं नन्हा-सा दीपक ।

किन्तु,

रात्रिके घने अधकारकी निस्तब्धतामें जब मैं नक्षत्र-मण्डित आकाशको निहारता हूँ तो मेरी तुच्छ सकीर्णता नष्ट हो जाती है, और मैं बन जाता हूँ विराट् ।

तारे कहते हैं कि मैं उनसे विछुड़ गया हूँ, किन्तु, हूँ मैं भी उस अखण्ड आनन्द-ज्योतिर्मयका ही अचल प्रकाश ।

निर्भीकतापूर्वक उत्ताल तरङ्गों और वायुके प्रचण्ड थपेड़ोका सामना करता हुआ, अपने ही चिरन्तन प्रकाशमें मैं चराचरके लक्ष्यकी ओर गतिमान होता हूँ, क्योंकि,—

मेरी यात्राका अन्त, मेरा निर्वाण, तो उस व्योतिनिरङ्गनकी अनत लौमें अपनी क्षीण लौ मिलानेसे ही होगा ।

## ६७

चैती पूर्णिमाकी चारु चंद्रिका धरणी-तलपर फैले, उसके पूर्व ही, साँझकी कुन्दभरी बेलामें, वह व्योम-यानपर बैठ कर, मेरे द्वारपर तोरण मारने आयेगा,

मैं नख-शिख तक शृगार कर किखाव और जरीके बहुमूल्य वस्त्र पहनूँगी,

और मेरे सीसपर स्वर्ण और मोतियोंका सेहरा सोहेगा, जिसमें थेत और रक्त गुलाबकी कलियों गुंबी होंगी,

चिर प्रतीक्षासे प्रेम-पिछल होकर मैं सुमनोंसे सजी हुई आरती उतार उसका स्वागत करूँगी, बृह्म पुरोहित गोधूलिमें लग्न साधेगा,

और मेरा प्रेमी भौंवरें भर, उक्कठासे द्वैतका वैङ्घट मेरे मुखसे खिसका, मुझे उस अज्ञात लोकको ले जायेगा जहाँसे लौटकर फिर कोई इस जन्म-मरणकी चक्कीमें पिसने नहीं आता !

वर-नधूका वह चिर-मिलन कितना सुन्दर होगा !

## ६८

तारे एक एक कर बुझ गये, किन्तु रजनीका अवसान न हुआ !  
जराके मोहान्ध प्रागणमें प्राण अटके थे, नश्वर यौवनके

एकसठ

## ६६

बूढ़े ब्रह्माने मुझे अपनी रसायनशालामें पञ्च महाभूतोंको मिलाकर निर्माण किया और फिर चाकपर चढ़ा, मेरे भाग्यमें न माछम क्या टेढ़ा-मेढ़ा लिख दिया !

इस मृत्तिकाके क्षणभगुर पात्रमें अनत जीवनकी लौ जला उस निर्दयेन मुझे ससार-समुद्रके वक्षस्थलपर पाप और प्रलो-भनोंके ओंधी और तूफानसे निरन्तर युद्ध करनेके लिये छोड़ दिया । कहाँ वह पल-पलमें परिवर्त्तन होनेवाली सुदूर फैली हुई छोरहीन गम्भीर जलराशि, और कहाँ मैं नन्हा-सा दीपक !

किन्तु,

रात्रिके घने अवकारकी निस्तब्धतामें जब मैं नक्षत्र-मण्डित आकाशको निहारता हूँ तो मेरी तुच्छ सकीर्णता नष्ट हो जाती है, और मैं बन जाता हूँ प्रियाद् ।

तारे कहते हैं कि मैं उनसे विछुड़ गया हूँ, किन्तु, हूँ मैं भी उस अखण्ड आनन्द-ज्योतिर्मयका ही अचल प्रकाश !

निर्भीकतापूर्वक उत्ताल तरङ्गों और वायुके प्रचण्ड थपेड़ोंका सामना करता हुआ, अपने ही चिरन्तन प्रकाशमें मैं चराचरके लक्ष्यकी ओर गतिमान होता हूँ, क्योंकि,—

मेरी यात्राका अन्त, मेरा निर्वाण, तो उस ज्योतिर्निरङ्गनकी अनंत लौमें अपनी क्षीण लौ मिलानेसे ही होगा ।

## ६७

चैती पूर्णिमाकी चारु चट्ठिका वरणी-तलपर फैले, उसके पूर्व  
ही, सॉज्जकी कुन्दभरी बेलामें, वह व्योम-यानपर बैठ कर, मेरे  
द्वारपर तोरण मारने आयेगा,

मै नख-शिख तक शृगार कर किखाब और जरीके बहुमूल्य  
वख पहनूँगी,

और मेरे सीसपर स्वर्ण और मोतियोंका सेहरा सोहेगा,  
जिसमें श्वेत और रक्त गुलाबकी कलियों गुंधी होंगीं,

चिर प्रतीक्षासे प्रेम-विहळ होकर मैं सुमनोंसे सजी छई  
आरती उतार उसका स्वागत करूँगी, वृद्ध पुरोहित गोधूलिमें  
छम्म साधेगा,

और मेरा प्रेमी भाँवरे भर, उत्कठासे द्वैतका पूर्घट मेरे मुखसे  
खिसका, मुझे उस अज्ञात लोकको ले जायेगा जहाँसे लौटकर  
फिर कोई इस जन्म-मरणकी चक्कीमें पिसने नहीं आता !

वर-वधूका वह चिर-मिलन कितना सुन्दर होगा !

## ६८

तारे एक एक कर द्युक्ष गये, किन्तु रजनीका अपसान न हुआ !  
जगाके मोहान्ध प्रागणमें प्राण अटके थे, नश्वर यौवनके  
एकसट

कुत्सित अभिनय-चित्र मृत्युके काले अचलपर आकित होकर  
मानव-हृदयको भयभीत करते थे,

भुलाये हुए भूतकी स्वप्निल ओँखोंमें भविष्यकी स्वर्णिम  
रेखायें दिखती थीं,

और कुटियाका निर्वाणोन्मुख प्रदीप टिमटिमा रहा था,

इसीलिये, तारे बुझ गये किन्तु रजनीका अवसान न हुआ ।

## ६९

मैं अलमस्त पीनेवाली हूँ, साकी, मुझे भर भर जाम पिला,  
और खूब पिला ।

क्या हुआ जो तेरे तरल पानीका मोल चुकानेके लिये  
मेरा गाँठमें रजतके टुकड़े नहीं हैं ।

क्या हुआ जो मेरे अस्थि-पञ्चर-मात्र ककालमें तुझे रिखानेके  
योग्य सौन्दर्य नहीं है ।

क्या हुआ जो मेरे रतनारे निस्तेज नेत्रोंमें तुझे अपनी  
ओर आकर्षण करनेकी शक्ति नहीं है ।

फिर भी मुझमें पीनेकी अदृष्ट चाह है, और ग्रेमके मर्मको  
पहचानती हूँ ।

मैं अलमस्त पीनेवाली हूँ, साकी, मुझे पिला, खूब पिला ।

सुनो तो ।

तुम्हारी तालपर तो पशु-पक्षी, सुन्दर पर्वतमालायें, और  
सदैव अमण करनेवाले नक्षत्र, मनुष्य और देवता, नाचते हैं,

तुम ही तो सुनसान फेनिल समुद्र और पूर्णोन्दुमें अद्भुत  
भाव भरते हो,

ओह अमरधन !

यदि तुम मेरे स्नेह-कोमल पर निर्वल हृदयको, जो प्रेमकी  
धड़कनसे घुट रहा हे, यथेष्ट बल और सान्वना प्रदान करोगे  
तो, तारनहार,

उस दिन विधाता अपना कालचक्र धुमाना छोड़कर  
क्षण-भरके लिये कह उठेगा,

‘देखो, मरणशील मानवने देखते ही देखते प्रेमका अनमोढ  
अमरत्व प्राप किया ! ’

देवता, मेरी प्रार्थना स्वीकार न करोगे ?

बनजारे,

पार्थिव पिश्चकी विपुल भावनायें जाग उठी हैं, तू क्यों  
वेखवर सोता है ?

मेरा शाश्वत प्रणय जीवनकी व्योत्स्नामें धुलकर अमर  
हो गया है,

मेरे कवि-हृदयकी विष्णु विरक्तिसे ऊवकर प्रकृति मदिरासे  
भिन्न हो गई है,

तेरी चितवनोंमें समाधिस्थ सङ्कीर्त-राशिकी आँखें स्मित  
हास्यसे चम-चमा उठी हैं,

और मैं अपना जीर्ण ककाल यौवनमें परिणत कर तेरी  
चिरप्रतीक्षा कर रही हूँ ।

बनजारे, पार्थिव पिश्चकी विपुल भावनायें जाग उठी है,  
अब तू क्यों वेखवर सोता है ?

आज रण-विजयी घर लौट रहा है, उसे बधाने जाना  
है। सुभगे, चल तेरी श्याम-वर्ण वेणीको सुगधसे सींचकर  
पुष्पोंसे बॉध ढूँ,

गज-मुक्तासे तेरा शृगार कर ढूँ,

फिर तेरी आतुर निर्निमेष औंखोंमें सुरमा सारकर उनकी  
शोभा बढ़ा ढूँ,

और तेरे लोने ललाटपर सुरग-बिन्दु लगा उसे विजयोद्धासित  
हर्षसे दमका ढूँ !

चाक कुमारी उसे बधाने कोरा कलश लाई है, और  
मालिन मकरद पुष्पोंकी माला !

उठ, सखीरी, मोतियोंसे सुवर्ण थाल सजा ले,

इत्रभरी आरतीमें लौनी लौ रख दे,

आनदाश्रुसे गङ्गा-जली भर ले, और

पट-पूजाके प्रेमरारे साजको गँड़ी हुई वेणी-आछयमें रख ले ।

आज रण-विजयी घर लौट रहा है, उसे बधाने जाना है !

प्रभातकी वाल्यावस्थामें, जब मेरी अज्ञात ओंखे शैशवके स्वप्न देख रही थी, तब तुम भव्य भिखारी बन, मन्दार पुष्पोंका साज पहन, मेरी कुटियामे आये, और मुझे क्या दे गये ?

—मुख्लीवाले,

प्रभातकी किंगोरावस्थामें जब मेरे आगा-उन्मीलित नेत्र अलभ्य यौवनके स्वप्न देख रहे थे, तब तुम मोर-मुकुट पीताम्बर पहनकर आये, और मेरे मुख्ध हृदयमें क्या भर गये ?

—नटवर,

प्रभातकी जर्जर यौवनावस्थामे जब मेरे वैशाखी नयन-निर्झर किसी तक सन्देश पहुँचानेमें व्यस्त थे,—वैखवर अपनी फक्तीरीमें मस्त थे, तब तुम मग्न-भग्न-हृदय सन्यासीकी भाँति आये, और मेरा सब-कुछ चुराकर वह कौन-सा चक्र चला गये ?

## ७४

प्रेमी,  
 कम्पित कदलीसे मैं ज्यादा कम्पिता हूँ ।  
 प्रेमने मुझे सरिताके लिंगध जल-सा तरल बना दिया है,  
 मुरलीमनोहर,  
 तेरी मुरलीकी धनिका प्रभाव मुझपर गिरि-पवन-सा  
 पड़ता है और,  
 मेरा पल-पलमें परिवर्तित होनेवाला हृदय सम्पूर्ण ध्यानसे  
 आकर्षित हो उस सङ्गीत-लहरीको सुनता है,  
 प्रिही,  
 तेरी वेदना-भरी आह अथवा खोई प्रतिघनि सुन मै वैसे  
 ही रोमाञ्चित हो जाती हूँ जैसे पूर्णेन्दुमें समुद्रका ज्वार उसे  
 चूमने छटपटाता है ।

## ७५

—त्रस, अब मुझे सोने दो,  
 प्रभात होते ही जुदाईकी घड़ी निश्चित मृत्युकी तरह  
 आवेगी, और हमको सदाके लिये जुदा कर देगी ।

## मौकितक भाल

वसतका अत नहीं हुआ,  
यौवनके आँसू न सूखे,  
पाप-मोचनके लिये सरिताके शुचि नीरकी उपयोगिता  
ज्योकी त्यो है,  
प्रकृति हरी है,  
सन्ध्यामें शातिका आवास है, और प्रभातमें जीवनको  
पालनेकी क्षणभगुर विडम्बना,—  
इन सबसे छूट कर मुझे सो लेने दो, जुदाईकी मृत्यु-  
निश्चित घड़ी हाथ बोधे खड़ी है !

## ७६

सजनी, अरे !—कल भी हृदय-न्हार न आये,  
देख तो, यह मोगरेका हार यों ही सूख रहा है,  
गुलाबका इत्र और मृग-मद-मिश्रित चन्दन मेरे सूने शयन-  
कक्षमें व्यर्थ ही अपनी सुरभि फैला रहे हैं,—  
क्या आज भी मेरा चितचोर न आयेगा ? मेरा जी अन-  
मना हो रहा है,  
मेरे अङ्ग-प्रत्यङ्ग फड़क रहे हैं,  
और मैं छतपर बैठे कागके उड़नेका आसरा देख रही हूँ !

## ७७

धूघटका पट खोल दे, मधुवाले ।

मैं इस सर्ण-घटमें भरी हुई महँगी वारुणीका मोल करने  
नहीं आया हूँ, क्योंकि इससे मेरी तृति न होगी,

तेरे मथखानेमें झूमते हुए बेसुध पियकड़ोंकी रगरलियाँ  
देखनेका भी मेरा मन नहीं होता क्योंकि वह मेरे एकाकी  
नाटकका दृश्य पूर्ण नहीं करतीं,

तेरी समवयस्का मधुनायिकाओंकी मधुर पायल-ध्वनि तथा  
हाथीदाँतकी चूड़ियोंकी खनखनाहट मेरा व्यान आकर्पित नहीं  
करती क्यों कि मेरे प्रेमका ध्येय बाह्याडम्बरोंसे परे है,

तेरी रङ्गशालामें जमी हुई महफिलका मदभरा राग सुन-  
कर मुझमें रोमाञ्च नहीं होता, क्योंकि,

मैं तो केवल तेरे चन्द्र-मुखकी सुधा पीने आया हूँ, जिसे  
पीकर पीना सदाके लिये भूल जाऊँगा ।

धूघटका पट खोल दे, मधुवाले ।

ओ जल्लाद !

इस रेशमी फाँसीके फदेको मेरी झुकी हुई गर्दनमें जकड़ देनेके पश्चात् मेरी तड़पती हुई लाशपरका लाल कफन उठाकर उस अदृश्य ईशपुत्रका आहान करना, जो विश्व-हितके लिये शूलीपर चढ़कर भी अपनी सच्चाईका सुवूत देने जी उठा था,

अमावास्याके घने अधकारमें जब वह श्वेत चदरसे ढाँपकर मुझे अपने कधेपर रख दफनाने ले जाये तब उससे कहना, ‘उस धूलके गुच्छारपर चिराग जलाकर बैठे और मुझे वह अतिम कलमा सुना जाय जिसको याद कर मैं तेरे मिलनेके लिये कयामतकी दुआ न करूँ ।’

पिश्च जब घोर पाप-पक्षमें लिप्स हो स्वार्थको स्वतन्त्रताका  
नाम दे रक्तकी नदियाँ बहावे, और धर्मकी आङ्गमें अत्याचारका  
दारुण अभिनय हो,

तब तुम ग्रकाशकी प्रच्छन्न किरण बनकर आना, ओर हमें  
पावनताका शुचि पाठ पढा देना,

जब भूतलपर सर्वत्र अशाति फैले, और महामारीके भयकर  
अकोपसे शेषासन ढोल उठे,

तब तुम स्वातीकी नन्ही बूँदें बन कर आना,

और परीहेकी तरह कभी न शात होनेवाली चिर आशा  
उत्पन्न कर जाना,

जब ऊधोके निर्गुण उपदेशसे गोपिकायें ऊब जायें, और  
प्रेमको ईश्वरका सगुण रूप न मानकर उसकी उपेक्षा  
करें तब

तुम धनश्याम बनकर आना, और एक ही भाव-भगीमें  
उस सनातन सत्यका प्रकाश कर जाना !

यौवनकी प्रथम सन्ध्यामें ही तुम इस आहो-सनी काळ  
कोठरीमे कैद हो गये, फिर भी, तुम सदा हँस-मुख रहते हो,  
यह देखकर मैं निश्चेष्ट हो जाती हूँ !

इस कारागृहमें वह कौन-सा सुख है जो तुम्हे मस्त बनाये  
द्छए है ?

शायद तुम स्वत्रताके सस्कृत जीवनका धूमिल चित्र  
बनाते हो और कल्पनाके नयनसे उसे निहार वर्तमानको भूल  
जाते हो !

तुम मेरे बन्दी होकर भी कुन्दनसे कान्ति भरे हो, और मैं,

राजरानी होकर भी तुम्हारे कृपा-कटाक्षके लिये तिल तिल  
मर रही हूँ !

काश ! मैं तुम जैसे अजेय बन्दीसे स्वयं वैध सकती !

नौसिखिये,

विन वजी वीणाके इन तारोंको अस्त-व्यस्त न करो,

काल-विटपको फलते देखकर अब तक मैं निस्तब्ध थी,  
अनजान थी, और अपने मृद्धित वैकल्पको इसी वीणामें  
रमा प्रणयकी लीलाओंसे थी उदासीन,

तुम्हारे तार-प्रकम्पनमें सधा हुआ लय-लालित्य नहीं है,  
इन्हें न छूओ, क्योंकि,

ये तो उसी प्रीतमके कोमल-करन्स्पग्से मधुर गुञ्जन  
करेंगे जो इन्हें बजा,

मेरे सुप्र प्रणयको जाप्रत कर,

उसका रस लेगा !

नौसिखिये, वीणाके इन तारोंको न छेड़ो !



यदि मैं स्वर्ग और भूतलका अधीश्वर होता तो वस्तकी  
समस्त सुपमा छीनकर उपा और सन्ध्यासे तुम्हारा शृङ्खार करवाता,

रत्नाकरके अनमोल मोतियोंसे तुम्हारी माँग भरता,

चौंद और तारे तुम्हारे केश-व्यालोंमें गूँथ देता, अप्सराओंको  
तुम्हारी परिचारिकायें नियुक्त करता जो हाथ बोधे तुम्हारे  
इशारोंपर नाचतीं,

चराचरका रहस्योद्घाटन कर तुम्हारा मनोरञ्जन करता,

और विश्वका सारा वैभव तुम्हारे चरणोंपर चढ़ा अपनेको  
धन्य मानता, किन्तु,

मुझ गरीबके पास, मेरे टूटे दिलके दिलसुवाके सिवा है  
ही क्या जिसके तारोंको अपने स्वप्निल गीतोंसे प्रकभित  
कर, मैं तुम्हारी अमर कीर्ति दिग्-दिग्न्तरमे गाता फिरता हूँ !

मैं उस मयूरके नयनोंका तस नीर नहीं हूँ जिसे पीकर  
मयूरी हुलसी हुलसी फिरती है,

मैं उस हृष्ट-पुष्ट अज-शावकका रक्त नहीं हूँ जिसके सिंचनसे  
अमर-बछुरी हरी हो जाती है,

मैं उस प्याली-भरी वारुणीकी प्रथम हिल्लोर नहीं हूँ जो  
पीनेवालेको अलमस्त बना देती है,

मैं उस नवोदाकी भ्राति नहीं हूँ जिसे भौपकर नायक राजा  
उठता है,

मैं उस प्रियतमका अद्भूता सौन्दर्य नहीं हूँ जिसे निरखकर  
विश्व विमोहित हो जाता है,

मैं तो केवल उस भिखारिनका ममत्व-भरा भाव हूँ जिसे  
पढ़कर चराचर अपना रहस्य सुलझा लेता है !

अपने प्रेमीके लिये मैंने एक मन्दिर और वेदी बनाई,  
उसका प्रत्येक पत्थर प्रेममय पिचार था। उसकी दीवालोंको  
सुसज्जित करनेके लिये मैंने स्वर्ग और भूतलपर, दूरदूरतक,  
मञ्जुल कल्पनाओंकी खोज की।

दिव्य कर्म और दीप शब्दोंने अखण्ड विश्वास और पूर्ण  
प्रेमके साथ मिलकर ही उस मन्दिरका भव्य भवन निर्मित  
किया था।

प्रेमका वह मन्दिर,—

हाँ, वड़ी कठिनाईसे वह बना था !

परन्तु—?

उसमें निवास करने कौन आया ? वह सुखझा नहीं  
जिसकी मैंने यावज्जीवन कल्पना की थी, वे अद्भुत आँखें ही  
नहीं जिनकी सुखदा सुवामयी रुचिरतासे मैं जन्मजन्मान्तरसे  
खूब परिचित हूँ।

प्रियतमको न देख मैं व्याकुल हुई !

‘देवता ! दया कर दयानिधान !’

एक प्रतिघोष उठा,—और निखरे हास्यमें मैंने सुना—  
‘मैं दया हूँ।’

CC

तेरे सुकुमार नव हृदय-पौधेके निखरते सुमनको मैंने खिलते  
हुए देखा,

मेरा अपलक आकर्षण उत्कठाकी सीमा पार कर चुका था,  
वायुके मद मंद झोंकोंसे सुगवका जनुभव हुआ,  
—सौन्दर्य निरखनेकी आतुर पिपासा खींचकर निकट ले गई ।

अलसाये यौवनने प्रस्फुटित यौवनसे नयन मिलाये,  
प्रकृतिने व्यगसे कहा, ‘वेणीमें गूथ लो, पूर्णिमाकी  
रुलाबी रजनीमें मोहनको रिज्जाकर मुरली सुनानेकी याचना  
करना ।’

विवश थी, फिर भी इस हलके व्यगको न सह सकी,  
उलझी अलकोंको, धूघट निकाल, आँसुओंसे तर  
करने लगी ।

कुमुदको बाहु-पाशमें वॉधि कुमुदिनीने प्रवेश किया,  
मैंने देखा, और एकाकी प्रियतमकी सृतिसे सिहर उठी,  
—असहाय अवला, हाय । क्या करती ? फूलके वैषको चुराया  
और चुपकेसे गोधूलिमें मिल गई ।

प्रियतम मुझे खोजने निकले,

परन्तु,

मैं स्वय उन्हें खोज रही हूँ ।

अस्ती

दिव्य,

क्या हुआ यदि मैं तुमपर मन्दार न बरसा सकी ?

पर आज तो तुम्हें इन सूखे बेल-पत्रोंसे ही रीझ उठना  
चाहिये, तुममें और मुझमें तो धना अन्तर है,

तुम तो भरी प्यालीको ढुकरानेकी क्षमता रखते हो,  
और मैं,—

बूँद बूँद पीनेके लिये तड़प तड़प कर बेगानी फिरती हूँ !

इसीलिये कहती हूँ, क्या हुआ यदि मैंने तुम्हारे पथमें  
विछे फलोंको बटोरकर काँटे बिछाये ?

तुममें और मुझमें तो धना अन्तर है !

सदैव तुम मुझे पिलाकर पागलसे झूमते थे, परन्तु,—  
आज उष कालसे हीं ढालते ढालते अवसान कर दिया;  
सलोनी सुराही रिक्त होनेसे विरक्ताकी भौति तुम्हारे अध-  
खुले नयनोको निहार रही है,

तुम्हारे शुष्क अधरोंसे वह अधीर अतृप्ता, निराशाका  
उच्छ्वास बनकर, निकलती है और उस रिक्त सुराहीमें आहकी  
मदिरा बन समा जाती है,

परन्तु,

तुम न माल्म कौन-सी खोई हुई मोहिनीको पुन खींच लानेका  
सतत प्रयत्न कर रहे हो !

सफल न होनेपर सिर धुनते हो, फिर, भावहीन भौहोको  
टेढ़ी कर, मेरी प्यालीमें वची हुई बैंदोंको निर्निमेष नेत्रोंसे देखने  
लगते हो, तब, कदाचित् ,

तुम मेरे साकी होना भूल जाते हो, और सहसा अपनी  
ऑखोंसे मेरा नशा उतार कर वे बैंदें प्रियतमको पिला, उसे  
बदहोश बना देते हो,

धन्य साकी ! तुम पिला-पिलाकर प्रसन्न होते हो, और बिलमाये  
प्रेमियोंको मधुर-मुग्ध बनाकर प्रणय और प्रेमका दान देते हो;  
रस-भीने साकी !

वह सुन्दर था, सुशील था, और था रसिक,  
उसके अलहङ्कारमें सरलता थी, और उसके यौगनके  
उन्मादमें बाल-सुलभ चापल्य,

सरयूके स्वच्छ जलसे क्यारियों सींचता, चमनमें चहल-  
कदमी करता, फूल तोड़ता, सूँघता, मसलता और धूलि-  
धूसरित कर देता,

उसके इस कौतुकसे सुकुमार नवीन पौधे सिहर जाते,

वह धीरेसे आता, और चुपकेसे चूम लेता !

मैं उधर देखती,—वह झेंपता, जिज्ञककर और मुसकराकर  
रह जाता !

मैं सरस थी, सलोनी थी, और थी मुग्धा,

मेरी प्रकृतिमें सध्याका अलसाया सौन्दर्य था, और गतिमें  
ठिपी हुई मत्तगयद-सी मादकता,

मृग-छौना भागता, मैं पकड़ती,

वह भयभीत होता, मैं मार्ग रोक लेती,

## मौकितक माल

फिर, मैं विखरी हुई अधखिली कलियों आँचलमे भर लाती,  
और सावधानीसे माला पिरोती,

वह देखता, परन्तु तरगिणीके तटपर जाकर व्यान-मग्न  
हो जाता,

मैं आहिस्तासे जाती और चुपकेसे माला पहना देती,

वह ऑखोमे रस भरकर देखता,—मैं झेंपती, झुझला जाती,  
और सहमती !

सन्ध्या-सुन्दरीको इयामाव्र अंधकार अपने अकमें ढक लेता,

वह आगे बढ़ता, मैं पीछे पीछे चलती,

अंधेरा घना हो जाता, स्यार चीखते, मैं चीत्कार कर  
उसका हाथ पकड़ लेती,

ऑखें मिलती,—एकसे ज्योति निकलती और दूसरेमें  
समा जाती,

हम झेंपते, झिझकते और एक हो जाते !!

आज तो मैं प्रेमीसे ज्ञगड़ गई,  
वर्षोंके पिनिमयसे मैने तेरी सेवा की, शुश्रूपा की,—हृदय  
दहल उठा,—

हा ! उसका क्या प्रतिकार मिला ?

जीवनके मोलसे की हुई आराधनाका प्रतिकार क्या था ?  
मेरे प्रति तेरी घोर अवहेलना, और भयकर अन्याय !

परन्तु,—

क्या मैं अपने स्थलोंकी आशा छोड़ दू ? प्रेमने आँखोंमें  
अमी उड़ेलते हुए कहा,—

‘क्या यह कली सराहनाके लिये खिली है ?

‘क्या सूर्यका प्रकाश तेरी पूजा और प्रार्थनाको, अर्च और  
आराधनाको, स्वीकार करनेके लिये महोदयि और वसुधापर  
फैलता है ?’

—मैं कुहुक उठी,—

‘मुझे अपने अतस्तलमें स्थान दो, नाथ,

‘मुझे वहाँ दिनमणिकी भाँति धुतिमय होने दो, गुलाब-सी  
खिलने दो !’

प्रेम ही प्रेमका प्रतिकार है !

९३

मरनेके पूर्व मृत्यु भयानह थी, किन्तु अब ?

अब तो वह जीवन-माधवीसे भी अधिक मधुरिमापूर्ण है !

इस नश्वर जगत्से उसने मेरा अस्तित्व मिटा मुझे गुलाबी चसत-पवन-सा मुक्त और स्वच्छद बना दिया है, जो कोकिलकी कण्ठ-ध्वनि सुनकर आम्रकी हरित मङ्गरीमें मधुर प्रकम्पन उत्पन्न करता है,

उस महान् परिवर्त्तनने मुझे पञ्चत्वमें मिला, विचार-त्रैपम्यके निर्वाध व्यवधानोंसे मेरा पिण्ड छुड़ा, मुझे अधिक पारदर्शी और प्रत्यक्ष बना दिया है,

क्योंकि, प्रियतमका असाव्य प्रेम अब मेरे लिये सधी हुई पूजा,

और उनकी अभिसन्धि ही मेरे निसर्ग मरणका साफल्य है !

—इसीलिए तो कहती हूँ, मृत्यु अब जीवन-माधवीसे भी अधिक मधुरिमापूर्ण है !

यारे,

प्रेमकी पीड़ा मिटाना चाहे तो सो जा, सो जा ! दर्दे इरक  
जिन्दगीसे हटाना चाहे तो सो जा, सो जा !

रात्रिके मृदुल अधकारमें समुद्रकी लहरें तेरे चरण सुहलायेगीं।

पश्चिमी वायु लोरियों गा-गाकर तुझे सुनायेगी, और,—

नक्षत्र तुझे अपना समझ अनत शाति प्रदान करेंगे,

प्यारे,

उस यौवन-मद-मातीके चित्रनकी मधुर कसक मिटाना चाहे,

अपने हृदयके गम्भीर धारपर भूल्का मरहम लगाना चाहे,

तो सो जा, सो जा !

विस्मिल,

प्रेमकी तड़प मिटाना चाहे तो मर जा, मर जा !

दर्दे उल्फत जिन्दगीसे हटाना चाहे तो मर जा, मर जा !

नयन भूँदकर गुलाब और कमलके पत्तोंकी कोमल-शश्यापर  
चन्दनका लेप लगा सोनेसे तो मरना हजार बार भला,

कवियोंके व्यथाभेर गीत, शहीदोंकी अतस्तलसे निकली  
हुई दुआयें, और

मृत प्रेमियोंके सुरभित उच्छ्वास मृत्युके रहस्यमय प्रदेशमें  
प्रणय-स्वप्न सजीव कर उन्हें चरितार्थ करनेमें तेरे सहायक होंगे !

प्यारे, इश्ककी आगको बुझाना चाहे, उल्फतके घावको  
पुरखाना चाहे तो मर जा, मर जा !!

## १६

तुझे देखनेवाली अँखियाँ आनदसे ओत-प्रोत है, और  
तेरी मृदुल वाणी सुननेवाले कर्ण वन्य हैं, क्योंकि,—

ऐ मधुश्याम,

तेरे सन्निकट रहकर कोई भी उस असीम, चिरन्तन  
आनदसे वचित नहीं रह सकता, जिसके घनीभूत आलोकसे  
विश्व जन्मा है, जिसके आभामय यानपर ससार स्थित है, और  
जिसकी जाज्ज्वल्य ऊतिमे वसुधा लीन होती है ।

परन्तु,—जीवन-प्राण,

ससार मुझ अभागिनीके लिये कितना भयावह, और  
अधकारपूर्ण है ?

क्या मेरी वेदनाका कोई प्रतिधोप नहीं ? क्या मेरे लव-  
लीन लोचन-वारिको झेलनेके लिये कोई अमर अचल नहीं ?  
अडासी

छलिता,

मुझ पतिताकी पर्ण-कुटियामें तो आज मोहन मुरली  
बजाने आये,

मै पुलकित हो उठी, मल मल कर पदाम्बुज पखारे, और  
उस अमृतके अतिम वृँद तकको पी गई,

काठके कठौतेको चबा न सकी,—यही मेरा दुर्भाग्य था !  
वे मुखरित हो उठे—

‘ क्या लोगी,—मुग्धे ? ’

‘ कुछ नही । ’

‘ कहो भी,—मुक्ति चाहिये ? ’

‘ नही । ’

‘ स्वर्ग-सुख, योग, वा सिद्धि ? ’

मैं उन चरणोंको हृत् पटलपर अकित कर बोल उठी—

‘ उन सबको क्या करूँ ? मुझे तो भव-भवमें ये चरण  
चाहिये ! ”

दुपहरीकी अलसायी घड़ियोंमें, निस्तेज लेटी हुई जब मैं  
कालान्तरमें उत्पन्न होनेवाले कपि-कोपिदकी अलश्य  
कल्पनातक स्वप्न-यानमें बैठकर पहुँच जाती हूँ, तब मेरे  
सहज उत्सर्गमें सहसा दारुण विलोइन होती है !

मेरा शब्द-विन्यास ही उसका प्रिय आलोकित करेगा, और  
कालके अनत् कूचेमें वह मेरी सृतिमें सिर धुन-धुनकर  
बौरा जायेगा,

साकी, सुरा और मै न होंगे, किन्तु, मेरा अधक निर्द्वन्द्व  
प्रेम मेरे सँगरे शब्दोंमें चिन्तित होगा !

जनक-फुलगारीमें सीतारामके प्रथम दर्शनकी प्रेम-लीला  
लोप हो गई,

द्वापरकी अयोध्याका अस्तित्व न रहा,

रावणकी स्वर्ण-लका भस्मीभूत हुई,

किन्तु, तुलसीके अमर वाग्विलासमें वे व्योंकी ल्यो आज  
भी सजीव हैं !

भविष्यके गर्भमें छिपे हुए कविरत्न, तू मेरी सृतिमें  
विकल हो,

नव्वै

उसके पूर्व ही मैं तेरा स्वागत करती हूँ, सादर अभिवादन करती हूँ,

स्वर्ण युगके भावी निर्माता, मेरे अनत प्रणाम स्वीकार कर;  
मेरी शब्द-ज्योति ही तेरे अधे विश्वको आलोकित करेगी !!

## ९८

आशा—अमर धन !

गम्भीर प्रिय-सागरमे गोते लगाकर अनमोल मोती  
निकालनेके लिये मैने तेरे ही आसरे कमर कसी !

आकाशमे झूमते तारे मेरे सूने हृदयके स्मृति-स्तम्भ हैं,  
वे रँग-भीने बादल, मेरे आँखुओंके अथाह निधि वन,  
तेरे तापोंको शात करने, तेरे ही द्वारपर बरसने, आ रहे हैं,  
साकी,

भग्न हृदयका उपहार, भला, कैसा हो ?

मृत्युकी मोहमयी रागिनीसे एकम्पित हो मेरा कफन उड  
कर तुझे सुहलाये,

देवता,

उस काली घड़ीमें भी मुझे तेरा ध्यान रहे, कि उस पार,  
कोई मेरे लिये खड़ा है !

आशा—अमर धन !

इक्ष्यानवै

परदेसी,

इस अनत गमनके लिये ही तुम्हारा आगमन हुआ था,  
दीर्घिकाल तक विचार करते रहनेपर भी मैं इस महा  
प्रयाणके समय, द्वारकी देहली तक भी तुम्हारा साथ न दे सकी,  
पर सकीर्ण और दुर्गम था !

मेरे प्राण तुम्हारे रोम-रोममें रम रहे थे, और मैंने उस  
महीन जालको काटनेका कभी प्रयत्न भी न किया,

क्यों कि, मैंने समझा, जीवन अनत है, पाप एक अज्ञात भय,  
और रौख्यकी भीषण यत्रणा केवल कपोल-फलिपत सत्य है !

परदेसी, इस अनत गमनके लिये ही तुम्हारा आगमन  
हुआ था !

ईदका चॉद उगते ही मस्जिदकी मीनारसे रोजेकी अजान  
देनेवाले मुछा,

जब तेरी बाँगको सुनकर आस्मानसे अल्हाह उतर आये  
तब इतना तो कह देना,

‘सुबहके स्फुर्तिदायक समयसे लगाकर मव्याहूकी भूली हुई  
घड़ियों तक वह यौवनमें दूबी हुई आसनका अक्षत पात्र लिये  
अचल खड़ी रहेगी,

‘और मानव-हृदयके पावन प्रेमकी अधिष्ठात्री हो जायगी,

‘किन्तु, सन्ध्याकी मृत्युभरी वेलामें कलान्त होकर जीर्ण हो  
जाय, विपत्तिके मेघ उसे चारों तरफसे धेरकर गम्भीर गर्जना  
करे, विहङ्ग अपने नीदोंमें उड़ चले, कृष्ण-वालाके श्रम-विन्दु  
सूख जायें, दिन-भरके परेशान पथिक विश्रातिकी खोजमें भटकने  
लगे,—तब,—

‘अपना हृदय-नीड़

‘उसके लिये सुरक्षित रखना, जहाँ वह रात आरामसे बसर  
कर सके ! ’

अधे पक्षी भी सध्याके अंधकारमें तो वेष्टके अपने अपने  
घोसलोंमें ही सीधे प्रवेश करते हैं,—बूढ़े मुछा !!

मेरे जीवन-विटपसे धर्ष-प्रसून एक एक कर झङ्ग रहे हैं,  
 शीघ्र ही वह तो नीरस, शुष्क, कटीला ढण्ठल रह जायगा,  
 जिसे जरामें मृत्युका बर्फीला तूफान खूब झकझोरेगा,  
 वस्तमें जब कोयलकी कूज सुन हरियाली धूलके अव-  
 गुण्ठनसे झाँकेगी,

और सूखे तरुओंकी डालियाँ कोमल किसलय और नवल  
 सुमनोंसे खिल उठेंगी, तब,—

क्या मेरे जीवन-विटपमें भी वस्त फिरसे नवयौवनकी  
 वहार न लायेगा ?

विश्व-जीवनकी सामूहिक विप्रमता देखकर, मैं अपना जीवन क्यों नष्ट करूँ ?

कहाँ मानवी दुर्बलतायें, और कहाँ मेरा ईश्वरत्व ?  
 मेरे प्रकाशसे ही सूर्य, चन्द्र और नक्षत्र चमकते हैं,  
 मेरी प्रेरणासे ही पवन चलता है, और मेरी तालपर ही नटराज जीवन और मृत्युका भीपण ताण्डव रचते हैं,

मेरे क्रोधसे ही प्रकृति रौद्ररूप धारण कर प्रलय मचा देती है,  
 और, किर मेरे ही सकेतपर नवीन सृष्टिका सृजन होता है,  
 मैं ही कथियोंकी कल्पना, और अखिल पिश्वका सौन्दर्य हूँ !

विश्व-जीवनकी सामूहिक विप्रमता देखकर मैं अपना जीवन क्यों नष्ट करूँ ?

सनम,

जी चाहे तो मेरी यादमें ढुक रो लेना,

मृत्यु जब मेरी जीवन-माधवीकी स्वर्णिम प्यालीको रिक्तकर  
मुझे मिट्ठीमें मिला दे, तब तुम भूलकर भी मेरी खाकपर श्रेत्र  
सङ्गमरमरका दूसरा ताज न बनवाना,

मृत्तिकाके उस मृदुल ढेरपर तुम सुदूर शिराजके गुलाब,  
जिनके सलज यौवनसे मस्त हो हाफिजने सैकड़ों गज़्ये कह  
डालीं, और सलोने सरोके मञ्जुल वृक्ष लगा नवीन स्वर्गोद्यानकी  
रचना न करना जिसमें स्थान-स्थानपर निर्मल जलकी नहरें  
बहें और फज्वारे छूट-छूटकर फलकको छूयें,

जी चाहे तो मेरी यादमें दो आँसू बहा देना !

नीले आसमानके नीचे, जिसमें आकाश-गङ्गा बहती है,  
जहाँ नक्षत्र क्षणिक रजत प्रकाश छोड़कर लोप हो जाते हैं,  
और बादल पल-पलमे नया अभिनय करते हैं,—

मेरे धवल-तुपार-वक्षपर तो शवनम-गीली हरी घास ही  
वस होगी,

कोकिलकी कूजसे मैं न चौकूँगी,

न वासती मलयानिलके स्पशसे प्रकम्पित होऊँगी,

न ऊपाका आलोक, न सन्ध्याका सौन्दर्य, मेरी तुरबतके  
धूमिल प्रकाशको उज्ज्वल बना सकेंगे,

परन्तु, अगर मैं तुम्हारे प्रेमकी सृष्टिको विसार दूँ तो हश्र  
हो जाय, और क्यामतकी घड़ी नजदीक खिंच आय,

मैं तुम्हारे पार्श्वमें न होऊँगी, किन्तु विश्वका विमुग्धकारी  
सौन्दर्य तुम्हें लुभायेगा,

और तुम फिरसे रूप और सुराके भक्त बन जाओगे,

ऋतुयें तुम्हारा दिल बहलायेंगी, चन्द्रिका और वॉसुरीकी  
रागिनी तुम्हें भोग-विलासकी ओर आकर्षित करेगी,—

पर, मेरी मृत्युसे भग्न तुम्हारे हृदयमें जीग्न फिरसे प्रथम-  
प्रणयके सुरभित आनंदोच्छ्वासकी अनत माधुरी तो कदापि न  
भर सकेगा !

सनम,

साँझके झुटपुटे समयमें जी चाहे तो मेरी मजारपर बैठकर  
टुक रो लेना !

भटियारिन,  
 मेरे विछोहमें आँसू मत बहा, मत बहा,  
 विधनाको मनमानी करने दे, मेरी प्रतीक्षामे पलक न  
 बिछा, न बिछा,

मैं तो अब इस मार्गसे न लौटूँगा, तेरे हृदयके कपाट  
 मँद ले, आफूताब झब रहा है,

पवन पतझड़के पीछे पत्तोंमें मरमर-च्चानि कर रहा है, और  
 यम और यमी इस प्रशात घड़ीमें भूतलपर विचर रहे हैं !

मेरी चिन्तामे मत घुल, मत घुल, मैं तो अब इस सरायमें  
 किर कभी विश्राति न ढूँगा,

जुदाईके गम-ऊँड़े उच्छ्वास न छोड़, न छोड़, और न  
 विरह-व्यथामें रो-रोकर दिशाओंको व्याकुल कर,

आकाशमे रङ्गीले वादल कबड्डी खेल रहे हैं, और समुद्रमें  
 ज्वार उमड़ रहा है,—

तेरे हृदयके किवाड़ बन्द कर ले,

आफूताब झब रहा है ।

१०६

उसकी पार्थिव-अस्थियोंपर पोस्तके लाल फुल बरसाओ,  
और उसके कुफनपर श्वेत !

समुद्र उसके विरहमें करुण क्रन्दन कर रहा है,  
हवा उसके वियोगमें उच्छ्वास छोड़ रही है, और बुलबुल  
मरसिया गान्गाकर सुननेवालेके दिलको ठेस पहुँचा रही है,  
सुख दुख उसने देख लिये—  
उसके कफनपर श्वेत फुल बरसाओ, और उसके मृत-  
पिण्डपर लाल पोस्त !

किसी सूने शात स्थलमें,  
उसके क्लान्त शरीरको, मिट्टीकी कोमल शय्यापर धीरेसे  
सुला

उसके अर्ध-खुले नयनोंको आहिस्तासे मूँद दो,  
शून्य गगनकी शाति उसे मिले,  
वह तो प्रकाश और अधकार, शोक और आनंदके परे  
पहुँच गई,  
न अब उसे शुहरतकी जुस्तजू है, न वदनामीका भय,

निन्यानवै

वेहतर है यही कि सज्जेके धूघटमें वह अपना सौन्दर्य  
छिपा ले,—

क्यों कि, उसके लम्बे खामोशापर लिखी है मेरे जुलमकी  
दानवी कहानी,

या इलाही ! उसकी खाकनशीनीपर अमृत बरसा !

ऐ क़ब्र तक साथ देनेवालो !

उसके कफनपर श्वेत फूल बरसाओ और उसके पार्थिव  
शवपर गुले लाला और लाल पोस्त !

## १०६

दीवाने मन !

निद्रित विस्मृतिके उच्छ्वासोको एक ही उपहासमे उगल  
दे,—

फिर गूढ़ रहस्यमयी उमगका अतुल धनी बन,—

तेरा पागलपन अमर होगा !

मेरे गद्य-गीतोंके राजहसों,  
खूनी वर्फका तूफान इस भयकर शीतमें मेरे मानसरोवरको  
झुब्ध करे,

उसके पूर्व ही यहाँसे उड़ चलो ! उस सुदूर नील गगनमें  
विचरना जहाँ न कोई वनस्थली है, और न कल्पनाका विशाल  
नदन-कानन,

उड़ते उड़ते अपनी यात्रामें उन ऊचे गिरि-शिखरोंका  
अलौकिक सौन्दर्य निरखना न भूलना जहाँ सदैव चाँदी त्रिछी  
रहती है, और,—

जिनके आलिङ्गन-मात्रसे चन्द्रिका अपने पूर्ण यौवनको  
प्राप्त करती है !

मार्गमें तुम्हें उन विहगम-बालाओंकी सङ्गीत-लहरी सुनाई  
पड़ेगी, जो अपने प्रेमियोंसे चोचें मिलाकर स्वर्गीय राग  
अलापती हैं, और जिसको सुननेके लिये चराचर लालायित  
रहता है,

तुम उस स्वर्णिम-दीपमें जाकर ही विश्राम लेना जहाँ  
सदैव वसत पिराजता है,

## मौकितक माल

और जिसका अधिपति मेरी स्वप्न-कल्पनाका स्वामी भी है,  
और जिसका दिव्य-प्रेम मेरे रोम-रोममें बस रहा है,

उससे कहना कि प्रेमके चिरन्तन ध्येयको जो शुन्नि समर्पण  
है, खूब समझनेवाली तुम्हारी सरल पुजारिन तुम्हारे विरहमें रात-  
दिन तड़प तड़प कर किसी तरह काल-क्षेप कर रही है,—

उसकी शीघ्र सुधि ले, विजय-वर-माल पहनाओ ।

और अपने प्रेम-राज्यकी रानी बनाओ ।

जाओ,—तुम्हारा प्रवास सुखद हो, तुम्हारी लम्बी यात्रा  
शुभ हो, और कालरूपी बाज तुमसे कन्नी काटे—

—यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी मंगल-कामना है !



